

UNIFIED ACCOUNT OPENING FORM

यूनिफाइड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म

(For Residents and Non-Residents) (केवल निवासियों और गैर-निवासियों के लिए)

- Residents/ निवासि Non-Residents/ गैर-निवासि New Account Opening/ नया खाता खोलना
 Name Addition/ नाम जोड़ Residential Status Conversion form/ आवासीय स्थिति रूपांतरण फॉर्म

Account Opening Information and Choice of accounts/खाता खोलने के लिए आवश्यक सूचना एव खातों के विकल्प

Please check the relevant option/कृपया सही पर्याय पर निशान लगाये।

A. Account Type/ क. खाते का प्रकार Sole account/ एकल खाता Joint account/ संयुक्त खाता Number of accountholders/ खाताधारकों की संख्या 2/2 3/3

Minor/ अल्पस्क Yes/ हाँ No/ नहीं

B. Types of Customer:/ ख. ग्राहक का प्रकार: NRE Savings/ एनआरई बचत NRO Savings/ एनआरओ बचत NRE Current/ एनआरई चालू
 NRO Current/ एनआरओ चालू

C. Types of accounts:/ ग. खातों के प्रकार:

- Savings Account – It is the most common operating account mainly for individuals. A savings account helps people to put through day-to-day banking transactions, besides earning interest on the balances maintained in the account. बचत खाता – मुख्यतः व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जानेवाला यह अत्याधिक सामान्य खाता है। खाते में रखी बचत जमाओं पर ब्याज पाने के अलावा दैनिक संव्यवहार करने के लिए यह खाता लोगों को मदद करता है।
- Current account – These accounts are maintained mainly for business purposes. No interest is paid on the balance in the current account. चालू खाता – यह खाते मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं। चालू खाते में जमा शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। सावधि जमा (एफडी) के लिए एफडी बुकिंग फॉर्म पूर्ण करें।
- EEFC Account – Maintained in foreign currency, EEFC is a facility provided to the foreign exchange earners and can be held only in the form of a current account and no interest is payable. **ईईएफसी खाता** – विदेशी मुद्रा में प्रबंधित, ईईएफसी एक सुविधा है जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जनकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है और इसे केवल चालू खाते के स्वरूप में ही रखा जा सकता है और इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

D. I have an existing HSBC relationship with HSBC India / ग. एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे मौजूदा एचएसबीसी संबंध हैं

- Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारी Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.
- Joint Accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.
- Joint Accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.

E. Do you hold an account/product with HSBC in any other countries/ घ. क्या किसी अन्य देश में एचएसबीसी में आपका कोई खाता/उत्पाद है

- Yes/ हाँ No/ नहीं
- Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारी Yes/ हाँ No/ नहीं
If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____
- Joint Accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Yes/ हाँ No/ नहीं
If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____
- Joint Accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 Yes/ हाँ No/ नहीं
If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____

The 'Code of Bank's Commitment to Customers' was released by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in July 2006. The Bank is a member of the BCSBI. To obtain your copy of the code, please visit www.hsbc.co.in or one of our branches./ बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआई) द्वारा जुलाई 2006 में बैंक की ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धता की संहिता जारी किया गया था बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है। संहिता की आपकी प्रति प्राप्त करने के लिए वेबसाइट www.hsbc.co.in पर या हमारी किसी भी शाखा पर संपर्क करें।

F. Purpose of Account Opening/ च. खाता खोलने का उद्देश्य

- Household Expenses/ घरेलू खर्च Regular Mandated Debit/ नियमित अधिदेशित नामे Regular Mandated Credit/ नियमित अधिदेशित जमा Savings/ बचत
 Children's Education or School Fees/ बच्चे की शिक्षा या स्कूल फीस

G. Apply for HSBC Premier Mastercard® Credit Card/ छ. एचएसबीसी प्रीमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें Yes/ हाँ No/ नहीं

Usage:/ उपयोग: Domestic/ देशी Domestic and International/ देशी और अंतर्राष्ट्रीय

Are you a HBAP employee?/ क्या आप एचबीएपी कर्मचारी हैं? Yes/ हाँ No/ नहीं

Please open an account at your branch as per the details below./ कृपया नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपनी शाखा में खाता खोलें :

City/ शहर Branch/ शाखा

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें



(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Personal Details/ वैयक्तिक विवरण (Sole/First account holder/Minor)/ (एकल/प्रथम-खाताधारक/अव्यस्क)

Residential status/ निवासिय स्थिति Resident/ निवासि Non-Resident/ गैर-निवासि Foreign national/ विदेशी नागरिक Person of Indian Origin/ भारतीय मूल के व्यक्ति

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं
 Any other/ कोई अन्य Please specify/कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Are you known by any other names:/ क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं: Yes/ हाँ No/ नहीं

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Maiden name/ प्रथम नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Name/ नाम (Same as per ID proof)/ (वही जो पहचान पत्र प्रमाण में है) (provide if different from Full name)/ यदि भिन्न हो तो पूरा नाम दें

How would you like to be addressed in our communication?/ किस तरह आप हमारे पत्राचार में सम्बोधित किया जाना पसन्द करोगे?

Name as desired on the Card/ जो नाम कार्ड पर चाहिए

Date of birth/ जन्म तिथि Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender / तीसरा लिंग

Place/City of Birth/ जन्म का स्थान/शहर _____ Country of birth/ जन्म देश _____

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____

Multiple Nationality/ बहुराष्ट्रियता Yes/ हाँ No/ नहीं Nationality/Citizenship 2/ राष्ट्रियता/नागरिकता 2

Nationality/Citizenship 3/ राष्ट्रियता/नागरिकता 3

KYC number/ केवाईसी नंबर (Number would be given by Central KYC registry) (if available)/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (यदि उपलब्ध हो)

Marital status/ वैवाहिक स्थिति: Married/ विवाहित Single/ एकल Other/ अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Father's name/ पिता का नाम

Spouse's name/ पति/पत्नी का नाम (If available)/ (यदि उपलब्ध हो)

Mother's name/ माता का नाम

PAN details:/ पैन के ब्यौरे: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

For Minor accounts, Form 60 of minor is not required if guardian's PAN is available, provided minor's income does not exceed amount chargeable to tax. / अव्यस्क खातों के लिए, यदि संरक्षक का पैन उपलब्ध है तो अव्यस्क का फॉर्म 60 आवश्यक नहीं है, बशर्ते अव्यस्क की आय कर के लिए प्रभार्य राशि से अधिक न हो.

Permanent Account Number (PAN)/ परमानेंट अकाउन्ट नंबर (पैन) PAN card number/ मेरा पैन नंबर Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न NA/ लागू नहीं

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport / पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Permanent Driving licence/ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स Others/ अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स Others#/अन्य# _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

If "Yes", यदि 'हाँ', please state Aadhaar number / तो आधार नंबर उल्लिखित करें

*For information on additional documents acceptable as identity/address proof please get in touch with the nearest HSBC branch in India or your
Please initial below/ कृपया नीचे आइशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Mobile Alerts Registration/ मोबाइल अलर्ट्स रजिस्ट्रेशन Required/ चाहिए Not required / नहीं चाहिए

Alerts will be sent to your mobile number registered in HSBC India's records for transactions in your HSBC Advance/HSBC Savings Account in India which results into a debit of ₹5,000 or a credit of ₹10,000 and above. In case you wish to modify the standard threshold alerts and/or the existing alerts, you will have to provide written instructions to HSBC India. However, you will receive alerts on all transactions done using HSBC Debit and/or Credit Card. To know more about the list of mobile alerts available and the procedure of registering for the same, please visit www.hsbc.co.in/ एचएसबीसी इण्डिया के अभिलेख मे पजीबद्ध आपके मोबाईल नंबर पर आपके एचएसबीसी एडवांस/एचएसबीसी सेविंस अकाउंट में संव्यवहारों के लिए चेतावनियां भेजी जायेगी जो ₹5000/- का विकलन या ₹10,000/- या इससे अधिक के समाकलन पर दी जायेगी। यदि आप गुणवत्तापूर्ण प्रारंभ चेतावनियों एवं/अथवा मौजूदा चेतावनियों का आधुनिककरण करना चाहते हैं तो आपको एचएसबीसी इण्डिया को लिखित में निर्देश देने होंगे। आप द्वारा पर एचएसबीसी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुये किये गये संव्यवहारों के लिए आपको चेतावनियां मिलती रहेगी। उपलब्ध मोबाईल चेतावनियों की सूची के बारे अधिक जानकारी के लिए तथा उक्त के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया के लिए कृपया वेबसाईट www.hsbc.co.in को भेंट दें।

I would like to opt for account statement by e-mail / मैं ईमेल द्वारा खाते का विवरण प्राप्त करने का विकल्प देना चाहता हूं: Yes/ हाँ No/ नहीं If you opt for electronic statement, no physical statement will be send/ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का विकल्प चुनते हैं तो कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा।

E-mail/ ईमेल

Permanent Address:/ स्थायी पता: Same as current residential address/ वही जो वर्तमान आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Permanent Address/ स्थायी पता: Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार
 Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Previous Address (if resident at current address for less than 3 years)/ पूर्व पता (यदि वर्तमान पते पर 3 वर्ष से कम से निवास हो)

Years at previous address/ पूर्व पते पर वर्ष

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Other/alternate Residential Address/ अन्य/वैकल्पिक आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Please initial below/ कृपया नीचे आदृशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Mobile Alerts Registration/ मोबाइल अलर्ट्स रजिस्ट्रेशन Required/ चाहिए Not required / नहीं चाहिए

Alerts will be sent to your mobile number registered in HSBC India's records for transactions in your HSBC Advance/HSBC Savings Account in India which results into a debit of ₹5,000 or a credit of ₹10,000 and above. In case you wish to modify the standard threshold alerts and/or the existing alerts, you will have to provide written instructions to HSBC India. However, you will receive alerts on all transactions done using HSBC Debit and/or Credit Card. To know more about the list of mobile alerts available and the procedure of registering for the same, please visit www.hsbc.co.in/ एचएसबीसी इण्डिया के अभिलेख में पजीबद्ध आपके मोबाईल नंबर पर आपके एचएसबीसी एडवांस/एचएसबीसी सेविंग्स अकाउंट में संव्यवहारों के लिए चेतावनियां भेजी जायेगी जो ₹5000/- का विकलन या ₹10,000/- या इससे अधिक के समाकलन पर दी जायेगी। यदि आप गुणवत्तापूर्ण प्रारंभ चेतावनियों एवं/अथवा मौजूदा चेतावनियों का आधुनिककरण करना चाहते हैं तो आपको एचएसबीसी इण्डिया को लिखित में निर्देश देने होंगे। आप द्वारा पर एचएसबीसी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुये किये गये संव्यवहारों के लिए आपको चेतावनियां मिलती रहेगी। उपलब्ध मोबाईल चेतावनियों की सूची के बारे अधिक जानकारी के लिए तथा उक्त के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया के लिए कृपया वेबसाईट www.hsbc.co.in को भेंट दें।

I would like to opt for account statement by e-mail / मैं ईमेल द्वारा खाते का विवरण प्राप्त करने का विकल्प देना चाहता हूँ: Yes/ हाँ No/ नहीं If you opt for electronic statement, no physical statement will be send/ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का विकल्प चुनते हैं तो कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा।

E-mail/ ईमेल

Permanent Address:/ स्थायी पता: Same as current residential address/ वही जो वर्तमान आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Permanent Address/ स्थायी पता: Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार
 Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Previous Address (if resident at current address for less than 3 years)/ पूर्व पता (यदि वर्तमान पते पर 3 वर्ष से कम से निवास हो)

Years at previous address/ पूर्व पते पर वर्ष

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Other/alternate Residential Address/ अन्य/वैकल्पिक आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Please initial below/ कृपया नीचे आइशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Office Landline no./ कार्यालय लैंडलाइन नं. Please mention 'NA' if you do not have a telephone number./ यदि आपके पास कार्यालय लैंडलाइन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' भरें.

Personal Details / वैयक्तिक विवरण (Joint Accountholder 1)/ संयुक्त खाताधारी 2

Residential status/ निवासिय स्थिति Resident/ निवासि Non-Resident/ गैर-निवासि Foreign national/ विदेशी नागरिक Person of Indian Origin/ भारतीय मूल के व्यक्ति

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं
 Any other/ कोई अन्य Please specify/कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Are you known by any other names:/ क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं: Yes/ हाँ No/ नहीं

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Maiden name/ प्रथम नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Name/ नाम (Same as per ID proof)/ (वही जो पहचान पत्र प्रमाण में है) (provide if different from Full name)/ यदि भिन्न हो तो पूरा नाम दें

How would you like to be addressed in our communication?/ किस तरह आप हमारे पत्राचार में सम्बोधित किया जाना पसन्द करोगे ?

Name as desired on the Card/ जो नाम कार्ड पर चाहिए

Date of birth/ जन्म तिथि Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender / तीसरा लिंग

Place/City of Birth/ जन्म का स्थान/शहर _____ Country of birth/ जन्म देश _____

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____

Multiple Nationality/ बहुराष्ट्रियता Yes/ हाँ No/ नहीं Nationality/Citizenship 2/ राष्ट्रियता/नागरिकता 2

Nationality/Citizenship 3/ राष्ट्रियता/नागरिकता 3

KYC number/ केवाईसी नंबर (Number would be given by Central KYC registry) (if available)/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (यदि उपलब्ध हो)

Marital status/ वैवाहिक स्थिति: Married/ विवाहित Single/ एकल Other/ अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Father's name/ पिता का नाम

Spouse's name/ पति/पत्नी का नाम (If available)/ (यदि उपलब्ध हो)

Mother's name/ माता का नाम

PAN details:/ पैन के ब्यौरे: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

For Minor accounts, Form 60 of minor is not required if guardian's PAN is available, provided minor's income does not exceed amount chargeable to tax. / अवयस्क खातों के लिए, यदि संरक्षक का पैन उपलब्ध है तो अवयस्क का फॉर्म 60 आवश्यक नहीं है, बशर्ते अवयस्क की आय कर के लिए प्रभाय राशि से अधिक न हो.

Permanent Account Number (PAN)/ परमानेन्ट अकाउन्ट नंबर (पैन) PAN card number/ मेरा पैन नंबर

Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न NA/ लागू नहीं

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Driving licence/ परमानेन्ट ड्राइविंग लाइसेन्स

Others/अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स

Others/अन्य# _____

Please initial below/ कृपया नीचे आदृशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Current Address in the jurisdiction details where applicant is resident for Tax Purposes / अधिकार-क्षेत्र में वर्तमान पता जहां आवेदक कर प्रयोजनों के लिए निवासी है.

Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration /विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) संबंधी घोषणा

Are you a US Person/ क्या आप अमेरिकी व्यक्ति हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

You will also be required to complete a Form W9/W8 with explanation, if any of the information in the account opening form indicates any US indicia.

The Form W9/W8 will be available on an external website -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> यदि खाता खोलने के फॉर्म में कोई सूचना कोई अमेरिकी संबंध सूचित करता है तो आपको स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 भरना होगा. यह फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 एक बाह्य वेबसाइट -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> पर उपलब्ध होगी.

Employment Details

Please check the boxes and fill the requested information under./ कृपया खानों को चेक करें और नीचे अपेक्षित जानकारी भरें.

Please select Employment status/ कृपया रोजगार की स्थिति का चयन करें

Employed (i.e Salaried)/ नियोजित (अर्थात वेतनभोगी) Self-employed/ स्व-नियोजित Non Employed/ गैर-नियोजित

Nature of organisation/ संघटन का प्रकार

MNC/ बहुराष्ट्रीय कंपनी Government/ सरकार PSU/ पीएसयू Public Ltd./ पब्लिक लिमिटेड Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप
 Partnership/ पार्टनरशिप HUF/ एचयूएफ Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Nature of business/ व्यवसाय के प्रकार

Software/ सॉफ्टवेयर IT / आईटी Hardware/ हार्डवेयर Finance/ फाइनेन्स Insurance/ बीमा FMCG/ एफएमसीजी
 Engineering/ इंजिनियरिंग Infrastructure/ इन्फ्रास्ट्रक्चर Textile/ टेक्सटाइल Leather / लेदर
 Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Your firm is/ आपकी फर्म है Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप Partnership/ पार्टनरशिप Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड

Your profession is/ आपका व्यवसाय है CA/ सीए Journalist/ पत्रकार Architect/ वास्तुकार Consultant/ सलाहकार Lawyer/ वकील

Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Employment role:/ रोजगार की भूमिका: Business Owner/ व्यावसायिक स्वामी Key Controller/ मुख्य नियंत्रण Sole Trader/ एकल व्यापारी

Employee/ कर्मचारी

Your occupation is/ आपका व्यवसाय है:

Senior MGMT/ वरिष्ठ एमजीएमटी Manager/Executive/ व्यवस्थापक/कार्यकारी Non-Executive/ अकार्यकारी Teacher/ शिक्षक Police/ पुलिस
 Armed forces/ सशस्त्र सेनाएं Salaried/ वेतनभोगी Seafarer/ नाविक (सीफेरर)

Company name/ कंपनी का नाम _____ Designation/ पद _____

Department/ विभाग _____ Gross annual salary/earnings/ सकल वार्षिक वेतन/आमदनी _____

Years in current Job/ वर्तमान नौकरी में कितने वर्षों से हैं

D D M M

Company Address/ कंपनी का पता

Flat no. and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road no./name/ रोड क्रमांक/नाम

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

section/ (कृपया वैकल्पिक खंड में नामांकन फॉर्म पूरा करें) Not required/ नहीं चाहिए

I confirm that I have read and understood the above information and do not wish to opt for Nomination./ मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त जानकारी पढ़ और समझ ली है और नामांकन का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं.

Sole/First Signature : / एकल/प्रथम के हस्ताक्षर : _____

Joint account holder 1 : / संयुक्त खाताधारी 1 : _____

Joint account holder 2 : / संयुक्त खाताधारी 2 : _____

AOA Staff ID : / एओए स्टाफ आईडी : _____

AOA Signature : / एओए हस्ताक्षर : _____

AOA Staff Name : / एओए स्टाफ नाम : _____

- HSBC PhoneBanking service is provided only to customers, who have opted for signing instruction 'Singly'/'Either or Survivor' / एचएसबीसी फोनबैंकिंग सेवा केवल उन्हीं ग्राहकों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने 'एकल' / 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' निर्देश पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना है.
- **Welcome pack:** An e-version of the HSBC Premier welcome pack will be sent to your e-mail ID registered with the Bank. If your e-mail ID is not registered with the Bank, you will receive a paper version of the same at the correspondence address registered with the Bank. In case you wish to receive paper version of HSBC Premier welcome pack (irrespective of registering your e-mail ID) you can also place a request for the same through HSBC Premier PhoneBanking/ **स्वागत पैक:** एचएसबीसी प्रीमियर स्वागत पैक का एक ई-संस्करण बैंक के पास पंजीकृत आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा. यदि आपकी ई-मेल आईडी बैंक के पास पंजीकृत नहीं है, तो आपको बैंक के पास पंजीकृत पत्राचार पते पर उसी का एक पेपर संस्करण प्राप्त होगा. यदि आप एचएसबीसी प्रीमियर स्वागत पैक (अपना ई-मेल आईडी दर्ज करने के बावजूद) का पेपर संस्करण प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एचएसबीसी प्रीमियर फोनबैंकिंग के माध्यम से भी इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं.

ATM facility linking HSBC Account to Credit Card/ एचएसबीसी खाते को क्रेडिट कार्ड से जोड़ते हुए एटीएम सुविधा Required/ चाहिए Not Required/ नहीं चाहिए

I wish to automatically settle my credit card bills by a debit to my HSBC Current/Savings Account number/ मैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का सेटलमेंट सीधे अपने आप अपने एचएसबीसी के चालू /बचत/खाते नं. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] for/ करवाके [] [] [] % of my credit card monthly outstanding. (Please note that you have to pay a minimum of 5%/ % डेबिट द्वारा करना चाहता/चाहती हूँ. (कृपया ध्यान रखें कि आपको न्यूनतम 5% देना होगा).

Unsecured Facilities with HBAP* Applicable for/ एचबीएपी* के साथ अनसिक्योरिड फेसिलिटीज

a) Employees of HBAP and b) Board of Directors of HBAP and their Relatives**/ अ. एचबीएपी के कर्मचारियों और ब. एचबीएपी के निर्देशक मंडल व उनके रिश्तेदारों पर लागू**
For employees and Board of Directors in The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) or HSBC Markets (Asia) Ltd. and relatives of the Board of Directors of HBAP or HSBC (Asia) Ltd., please indicate below whether you solely or jointly have any other unsecured facilities with HBAP sites and its subsidiary./ दि हॉन्गकॉन्ग एन्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचबीएपी) के कर्मचारियों और निर्देशक मंडल या एचएसबीसी मार्केट्स (एशिया) लि. और एचबीएपी के निर्देशक मंडल के रिश्तेदारों या एचएसबीसी (एशिया) लि. के लिए, कृपया नीचे अनुसार बताएं कि क्या आपके पास एचबीएपी साइट्स में और इनकी सहयोगी कंपनियों के साथ पूरी तरह या संयुक्त रूप से अनसिक्योरिड फेसिलिटीज.

Unsecured facility(ies) with HSBC India/ एचएसबीसी इण्डिया में अनसिक्योरिड फेसिलिटी(ज) Yes/ हाँ No/ नहीं

Definition/ परिभाषा:

*HBAP – The term HBAP is used for all HSBC areas, HBAP subsidiaries and other HBAP legal entities in the Asia Pacific Region. 1. Australia, 2. Bangladesh, 3. Brunei, 4. China, 5. Hong Kong, 6. India, 7. Indonesia, 8. Japan, 9. Korea, 10. Macau, 11. Malaysia, 12. Mauritius, 13. New Zealand, 14. Philippines, 15. Singapore, 16. Sri Lanka, 17. Taiwan, 18. Thailand, 19. Vietnam/ *एचबीएपी – एचएसबीसी के सभी क्षेत्रों, एचबीएपी की सहयोगी कंपनियों और एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में स्थित एचबीएपी के कानूनी अस्तित्व के लिए शब्द एचबीएपी का इस्तेमाल किया जाता है. 1. ऑस्ट्रेलिया, 2. बांग्लादेश, 3. ब्रूनी, 4. चीन, 5. हॉन्ग कॉन्ग, 6. भारत, 7. इंडोनेशिया, 8. जापान, 9. कोरिया, 10. मकाऊ, 11. मलेशिया, 12. मॉरिशस, 13. न्यूजीलैंड, 14. फिलिपाइंस, 15. सिंगापुर, 16. श्रीलंका, 17. ताइवान, 18. थाईलैंड, 19. विएतनाम.

**'Relative' defined under as:/'रिश्तेदार' की परिभाषा इस प्रकार:

- Any immediate ascendant, any spouse or former spouse of any such ascendant, and any brother or sister of any such spouse or former spouse;/ कोई भी नजदीकी पूर्वज, उस पूर्वज का मौजूदा या पहले का जीवनसाथी, और उस जीवनसाथी या पहले के जीवनसाथी का कोई भाई या बहन;
- Any immediate descendant, and any spouse or former spouse of any such descendant;/ कोई भी नजदीकी वंशज, उस वंशज का मौजूदा या पहले का जीवनसाथी;
- Any brother or sister, aunt or uncle, grandparents, grandchildren and their spouses, any nephew or niece and any first cousin;/ उस जीवनसाथी या पहले के जीवनसाथी का कोई भाई या बहन, चाचा-चाची, मौसा-मौसी, दादा-दादी, नाना-नानी, नाती-पोते और उनके जीवनसाथी, भतीजा-भतीजा, भांजा-भांजी और चचेरे भाई-बहन;
- Any spouse or former spouse, any immediate ascendant of any such spouse or former spouse, and any brother or sister of any such spouse or former spouse;/ जीवनसाथी या पहले के जीवनसाथी का या जीवनसाथी या पहले के जीवनसाथी का सगा पूर्वज और उसका कोई भाई या बहन;
- And, of the purposes of this definition, any step-child shall be deemed to be child of both its natural parent and of its step-parent and any adopted child to be the child of the adopting parent, and a spouse shall include anyone living as such. / इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए, कोई सांतेली संतान को दोनों, यानी प्राकृतिक, तथा सांतेले माता-पिता, दोनों की संतान माना जाएगा. इसी प्रकार गोद ली हुई संतान को, गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाएगा तथा जीवनसाथी में उन्हें माना जाएगा जो इस प्रकार मौजूद होंगे.

Level of activity anticipated/ प्रत्याशित गतिविधि का स्तर

Initial and ongoing sources of your wealth or income/ आपकी संपत्ति अथवा आय के प्रारंभिक एवं चालू स्रोत

- Earning from work/ कार्य से आय Earning from business interest/ व्यवसायिक ब्याज से आय Inheritance/ विरासत Personal savings/ नीजी बचत
- Return on investment/Investment matured/ निवेश/निवेश परिपक्वता पर प्राप्ति Earning given by spouse/ पति या पत्नी द्वारा दी गई प्राप्ति Sale of an asset (e.g. car, property, etc.)/ किसी संपत्ति जैसे कार, संपत्ति, इत्यादि का विक्रय
- Winning lottery prize money/ लॉटरी से जीती इनामी राशि Others/ अन्य (please specify/ कृपया विवरण दें _____)

Transaction Details लेनदेन के ब्यौरे	Total credits per month प्रतिमाह कुल जमा	Total debits per month प्रति माह कुल नामे
Number of transactions लेनदेनों की संख्या		
Transaction amount (₹) लेनदेन की राशि (₹)		

Value of the funds to be deposited in the account(s) within 12 months of opening/ खाता खोलने के बाद 12 महीने के भीतर खाते (तॉ) में जमा की जाने वाली (in local currency/ निधियों का मूल्य) (₹) _____

Other than usual day-to-day living credits and transactions will you be conducting any other cash transactions on a regular basis/ दैनंदिन जीवन-निर्वाह जमाओं और लेनदेनों के अलावा, क्या आप नियमित आधार पर कोई अन्य लेनदेन करेंगे? Yes/ हाँ No/ नहीं

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Would you conduct overseas banking transaction from this account? / क्या आप इस खाते से समुद्रपारीय बैंकिंग लेनदेन करेंगे? Yes/ हाँ No/ नहीं

Anticipated Transaction (annually): प्रत्याशित लेनदेन (वार्षिक):	Cash to be deposited जमा की जाने वाली नकदी	Cash withdrawn आहरित की जाने वाली नकदी	Outward Remittance जावक विप्रेषण	Inward Remittance आवक विप्रेषण
Country name(s) (applicable for remittance only)/ देश का नाम (केवल विप्रेषण के लिए लागू)				
Expected Value (amount in INR) अपेक्षित मूल्य (राशि भारतीय रुपये में)				
Frequency (volume) आवृत्ति (मात्रा)				
Reason for the transactions लेनदेन के कारण	<input type="checkbox"/> Regular Mandated Credits/ नियमित अधिदेशित जमा <input type="checkbox"/> Savings/ बचत	<input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च <input type="checkbox"/> Personal Expenses/ व्यक्तिगत खर्च <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Regular Mandated debit/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां	<input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च <input type="checkbox"/> Personal Expenses/ व्यक्तिगत खर्च <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Regular Mandated debit/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां	<input type="checkbox"/> Regular Mandated Credits/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Savings/ बचत <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां <input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च

Country/Territory(s/ies) where your current net worth has been accumulated: / देश/क्षेत्र जहां आपकी वर्तमान निवल संपत्ति संचित की गई है:

Country 1/ देश 1 _____ Country 2/ देश 2 _____

Country 3/ देश 3 _____

Associated Person(s)/ सम्बद्ध व्यक्ति

Is there any Associated person (e.g. Power of Attorney (POA), Guardian, Letter of Authority, Additional Cardholder, Contributor, etc.) on your accounts? / क्या आपके खातों में कोई एसोसिएटेड व्यक्ति (जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी (ज़ज), संरक्षक, प्राधिकार-पत्र, अतिरिक्त कार्डधारक, अंशदाता, आदि) है? Yes/ हाँ No/ नहीं

If yes, please provide information in Additional Details Section towards end of the form / यदि हाँ, तो कृपया फॉर्म के अंत में अतिरिक्त विवरण खंड में जानकारी प्रदान करें

Account operating instructions/ खाते के परिचालन संबंधी अनुदेश

Please select as applicable: / कृपया जो लागू हो वह चुनें: _____

^NRE/FCNR accounts and held jointly with resident close relative (relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) can be operated only on 'Former or Survivor' basis. / ^एनआरआई/एफसीएनआर खाते और निवासी निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित संबंधी) के साथ संयुक्त रूप से धारित खाते केवल 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर परिचालित किए जा सकते हैं।

Non-Resident customers can open Non-Resident Ordinary account(s) (NRO) with residents as co-applicants on a Former or Survivor basis. A Former or Survivor operating mandate permits only the first holder to operate his/her account during his lifetime. On the expiry of the first holder, the other holders i.e. the survivors are permitted to operate the account. / अनिवासी ग्राहक अनिवासी साधारण खाता (खाते) (एनआरओ) 'पहला व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर सह-आवेदकों के रूप में निवासियों के साथ खोल सकते हैं। 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर परिचालन अधिदेश केवल पहले धारक को उसके जीवनकाल के दौरान उसके खाते को परिचालित करने की अनुमति देता है। पहले धारक की समाप्ति पर, अन्य धारकों यानी उत्तरजीवी व्यक्तियों को खाते का परिचालन करने की अनुमति है।

Seafarer's Declaration (required in case of Seafarers)/ नाविक (सीफेरर) की घोषणा (नाविकों के मामले में आवश्यक)

Seafarer's Declaration (required in case of seafarers) / नाविक (सीफेरर) की घोषणा (नाविकों के मामले में आवश्यक)

(This declaration may be provided on a separate sheet, in case there are more than one account holders who are seafarers). / (यह घोषणा एक अलग शीट पर प्रदान की जा सकती है, यदि एक से अधिक खाताधारक हैं जो सीफेरर हैं)।

I hereby declare and confirm that I am a Non-Resident Indian (NRI), as per the definition under FEMA, 1999, and the rules and regulations made thereunder, and I am on contract with/ मैं इसकी घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि मैं फेमा, 1999 की परिभाषा और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हूँ और _____

(company) registered in/ (प्रधान का पता) में पंजीकृत _____

(address of the principal). / (कंपनी) के साथ संविदा पर हूँ _____

Request you to open an NRI account in my/our name on the basis of the submitted documents. / आपसे अनुरोध है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मेरे / हमारे नाम में एक एनआरआई खाता खोलें।

I also confirm that I will inform the Bank, in the event my status of NRI is altered and take such necessary action as is required under FEMA. / मैं इस

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

बात की भी पुष्टि करता हूँ कि एनआरआई की मेरी स्थिति में परिवर्तन होने पर मैं बैंक को सूचित करूँगा और फेमा के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करूँगा।

Date/ दिनांक

Signature of applicant/ आवेदक के हस्ताक्षर

Customer Declaration - Resident/ ग्राहक घोषणा - निवासियों

I/We confirm having read and understood the account rules/terms and conditions governing the account(s) and the various services including not limited to Debit Card/ATM/Mobile alerts in respect of the account(s), as amended from time to time by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) as made available on www.hsbc.co.in and hereby agree to be bound by the same./ मैं/ हम खाते (खातों) को और खाते (खातों) के संबंध में डेबिट कार्ड/ एटीएम/मोबाइल अलर्ट सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न सेवाओं को नियंत्रित करने वाले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (एसएसबीसी इंडिया) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित और www.hsbc.co.in पर उपलब्ध कराए गए खाता नियमों/विनियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लेने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं, और एतद्वारा उनसे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I/We declare that I/we am/are a tax resident/non-resident as per the provisions of Section 6 of the Indian Income-tax Act, 1961. In case there is any change in the tax residential status I/we undertake to promptly inform HSBC India about the same in writing./ मैं/ हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, मैं/ हम कर निवासी/ अनिवासी हूँ/हैं। कर निवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर मैं/ हम एसएसबीसी इंडिया को लिखित में उसके बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

I/We hereby confirm having agreed to receive all service communications from HSBC India on an ongoing basis through e-mails sent to the e-mail IDs registered by me/us with HSBC India. The communication may include account related information, certificates, bank notices and account statements./ मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एसएसबीसी इंडिया के पास मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे गए ई-मेल के माध्यम से सतत आधार पर एसएसबीसी इंडिया से सभी सेवा संप्रेषण/संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ/हैं। संप्रेषण/संचार में खाता संबंधी जानकारी, प्रमाण पत्र, बैंक नोटिस और खाता स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं।

I/We declare that the information given herein by me/us is true and correct, which HSBC India is entitled to verify directly or through any third party agent. मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य/सही है, जिसे एसएसबीसी इंडिया सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है।

I/We also agree that, if any such declarations made by me/us are found to be incorrect, HSBC India is not bound to pay any interest on the account(s) opened by me/us and is entitled to restrict operations in the account and/or terminate the account relationship./ मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि, अगर मेरे द्वारा की गई ऐसी कोई भी घोषणा गलत पाई जाती है, तो एसएसबीसी इंडिया मेरे/हमारे द्वारा खोले गए खाते पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है और परिचालन को प्रतिबंधित करने और/या खाता संबंध समाप्त करने का हकदार है।

I/We will also be liable to comply with the relevant Exchange Control Regulations issued and amended by Reserve Bank of India from time to time and adhere with the provisions under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)./ मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित किए गए संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम नियंत्रण विनियमों का पालन करने के लिए दायी हूँ/होंगे और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

I/We agree and confirm that HSBC India reserves the right to restrict account operation by giving prior notice of 30 days, if account related correspondence sent by HSBC India on the correspondence address recorded with HSBC India, is returned undelivered on two consecutive occasions due to any reasons whatsoever and the said restrictions will be removed once I/we update the correct address on HSBC India's records with address proof, or when I/we confirm that the current correspondence address on HSBC India's records is correct./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि यदि एसएसबीसी इंडिया के पास दर्ज किए गए पत्राचार पते पर एसएसबीसी इंडिया द्वारा खाते से संबंधित पत्राचार किसी भी कारण से दो लगातार अवसरों पर वितरित हुए बिना लौटा दिया जाता है तो एसएसबीसी इंडिया 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर खाता संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उक्त प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब मैं/हम पते के प्रमाण के साथ एसएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में सही पते को अपडेट करता/करते हूँ/हैं, या जब मैं / हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि एसएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में वर्तमान पत्राचार पता सही है।

I/We confirm that the funds withdrawn from the account of a minor account holder, from time to time, will be utilised only for the benefit of the minor. मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि अव्ययस्क के खाते से समय-समय पर निकाले गए धन का उपयोग केवल अव्ययस्क के लाभ के लिए किया जाएगा।

For Aadhaar only: / केवल आधार के लिए:

This is to confirm that I/we am/are voluntarily providing a physical copy of my Aadhaar card / e-Aadhaar card in a masked form to HSBC for the purpose of establishing my/our identity / address proof to set up a banking relationship and process instructions in relation to the same. I hereby provide my consent for verification of my Aadhaar to establish its genuineness through such means acceptable as per UIDAI or under any Act or law from time to time. The consent and purpose of collecting Aadhaar have been explained to me and I confirm having understood the same. I acknowledge that the Bank will store the said Aadhaar number in a masked form in their records and use the same for such purposes as may be permitted. I also acknowledge that the Bank has provided me/us with alternate options in terms of identity documents that could be provided in lieu of Aadhaar for setting up a banking relationship./ पुष्टि की जाती है कि मैं/हम एक बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पहचान/पते के प्रमाण के सत्यापन हेतु और उसके संबंध में अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए एसएसबीसी को अपने आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की एक भौतिक प्रति एक छद्मवेशी रूप में स्वेच्छा से प्रदान कर रहा/रहे हूँ/हैं। मैं ऐसे साधनों के माध्यम से अपने आधार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए एतद्वारा अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जो यूआईडीएआई या किसी अधिनियम या कानून के तहत समय-समय पर स्वीकार्य हो। आधार एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे समझाया गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उसे समझ लिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक उक्त आधार संख्या को अपने रिकॉर्ड में एक छद्मवेशी रूप में संग्रहीत करेगा और ऐसे उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करेगा, जो अनुमत हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि बैंक ने मुझे पहचान पत्र के संदर्भ में वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए हैं जो बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए आधार के बदले प्रदान किए जा सकते हैं।

For EEFC account held jointly with non-resident close relative(s):/ नॉन-रेजिडेंट नजदीकी रिश्तेदार(रों) के साथ संयुक्त आधार पर खोले गए ईईएफसी अकाउंट: I/We understand that the account held jointly with a non-resident close relative(s) (relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) can be operated only on 'former or survivor' basis. **For the Non-Resident Indian joint account holder:** I/We are aware that I/we as NRI close relative (as per Section 6 of Companies Act, 1956) can become joint account holder of this Savings Bank/Fixed Deposit/Current Account subject to certain conditions as stated in the Account Rules. I/We hereby undertake that I/we shall not use the proceeds lying in the above account for any transaction in contravention of the provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, Rules/Regulations made thereunder and the related circulars/instructions issued by the Reserve Bank from time to time./ मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि नॉन-रेजिडेंट नजदीकी रिश्तेदार(रों) के साथ संयुक्त आधार पर खोले गए ईईएफसी अकाउंट (रिश्तेदार को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) के मुताबिक 'फॉर्मर और सरवाइवर' आधार पर ही चलाया जा सकता है। **नॉन-रेजिडेंट भारतीय संयुक्त खाताधारक के लिए:** मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि बतौर एनआरआई नजदीकी रिश्तेदार (रिश्तेदार को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) के मुताबिक इस बचत खाते/सावधि जमा रसीद/चालू खाते में संयुक्त खाताधारक बन सकता है, जो अकाउंट रूल्स के तहत विशेष परिस्थिति में आते हों। मैं/हम इस बात को स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ऐसे खाते में पड़े पैसों का उपयोग ऐसे किसी भी व्यवहार के लिए नहीं करूँगा/करेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट (फेमा) 1999, के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियम/शर्तों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी इससे जुड़े सक्च्यूलर/निर्देशों के विपरीत हो।

For debit Cardholders: I/We confirm having read and understood the terms and conditions of usage of the debit card and agree to be bound by the same. I/We undertake to intimate HSBC India and surrender my/our debit card before proceeding overseas on permanent employment and/or emigrating and/or changing my/our nationality./ **डेबिट कार्डधारकों के लिए:** मैं/हम डेबिट कार्ड के उपयोग के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और उससे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं। विदेश में स्थाई रोजगार के लिए एवं/या विदेश में निवास के लिए एवं/या मेरी/हमारी राष्ट्रीयता परिवर्तन करने पर मैं/हम बैंक को सूचित करने का वचन देते हैं।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

For ATM funds transfer: I/We authorise HSBC India to transfer funds from my/our account through the ATM, subject to HSBC India policies, to third party beneficiaries as specified during operation of the ATM./ **एटीएम निधि अंतरण के लिए:** मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को एटीएम के परिचालन के दौरान निर्दिष्ट रूप में किसी अन्य पक्ष लाभार्थी को एचएसबीसी इंडिया की नीतियों के अधीन एटीएम के माध्यम से मेरे/हमारे खाते से निधियां अंतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

For mobile alert subscribers: I/We wish to avail of the mobile alert services and receive SMS alerts on my/our mobile phone number registered with HSBC India. I/We understand that HSBC India may, at its discretion, discontinue the service completely or partially with intimation to that effect. I/We agree that HSBC India may debit my/our account for Service Charges as per the prevailing tariff from time to time. I/We also understand that the SMS alerts under this service may contain certain personal and/or account information. I/We also understand and acknowledge that while HSBC India will make all reasonable efforts to ensure that my/our personal/account information is kept confidential, the SMS alerts cannot be guaranteed to be completely secure and HSBC India shall have no liability in this regard. I/We undertake to intimate HSBC India immediately in the event of any change in my/our mobile phone number(s)/ **मोबाईल अलर्ट उपभोक्ताओं के लिए:** बैंक के यहां पंजीकृत मेरे मोबाईल फोन नंबर पर मोबाईल अलर्ट सेवाएं तथा एसएमएस अलर्ट की प्राप्ति सेवा धारण करने की मैं/हम इच्छा रखते हैं। मैं/हम यह समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से, सेवाएं पूर्णतः या अंशतः उस प्रभाव की सूचना के साथ अनियमित कर सकता है। मैं/हम सहमत हैं कि सेवा शुल्क के लिए बैंक मेरा/हमारा खाता समय समय पर प्रचलित दर से डेबिट कर सकता है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि इस सुविधा के अंतर्गत एसएमएस अलर्ट में निश्चित व्यक्तिगत तथा/या खाते की सूचना रहेगी। मैं/हम यह भी समझते हैं एवं स्वीकार करते हैं कि बैंक युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि मेरी/हमारी व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रहे, एसएमएस अलर्ट की पूर्णतः सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं है तथा इस सम्बंध में बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। मेरे/हमारे मोबाईल फोन नंबर में किसी परिवर्तन की घटना में बैंक को तुरंत सूचना करने का मैं/हम वचन देते हैं।

I/We understand and acknowledge that: / मैं/हम समझता/समझते हैं/हैं और स्वीकार करता/करते हैं/हैं:

1. HSBC India does not provide any tax advice and service to its customers./ 1. एचएसबीसी इंडिया अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कर-सलाह नहीं देते हैं।
2. I/We understand it is my/our responsibility to comply with tax laws and accordingly I/we would comply with the worldwide tax reporting and filing obligation as applicable to me/us./ 2. मैं/हम यह मानता/मानते हैं/हैं कि कर-कानून का पालन करने और तदनुसार आय-कर विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी है। मैं/हम वर्ल्डवाइड टैक्स रिपोर्टिंग का पालन करूंगा/करेंगे तथा तदनुसार लागू एवं प्रचलित नियमों के अनुसार विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा/उठाऊंगे।
3. I/We am/are obliged to provide any information requested by HSBC India, that is required by law./ 3. मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को, कानून द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
4. I/We understand that where a referral by HSBC India is made to an external organisation for specific tax advice for me/us, the contract for such tax advice is between me/us and the third party, and any advice provided is the responsibility of such third party, and not HSBC India./ 4. मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी बाह्य संस्था से मेरी/हमारी विशिष्ट कर-सलाह के बारे में जानकारी मांगने पर, वह अनुबंध मेरे/हमारे तथा तृतीय पक्ष के बीच होगा, तथा ऐसी किसी भी प्रकार की सलाह तृतीय पक्ष की होगी, न कि एचएसबीसी इंडिया की।

Consent clause: / सम्मति शर्त:

1. I/We, understand that as a pre-condition, relating to grant of the loan/advances/other non-fund based credit facilities to me/us, HSBC India, requires my/our consent for the disclosure by HSBC India of, information and data relating to me/us, of the credit facility availed of/to be availed, by me/us, obligations assumed, by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/us, in discharge thereof./ 1. मैं/हम बैंक को, बैंक की नीति अनुसार व एटीएम के संचालन के अनुसार तीसरे पक्ष को मेरे/अपने एटीएम से पैसा हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं कि पूर्व-शर्त के अनुसार, मुझे/हमें दिए गए/दिए जाने वाले तथा सभी तरह के कर्ज/अग्रिम/अन्य नॉन-फंड-बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटीज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है व इन्हें बैंक ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारा बताने के लिए हमारी सम्मति है तथा अपनी देनदारी चुका न पाने की स्थिति में हम इनकी भरपायी का आश्वासन देते हैं।
2. Accordingly, I/we, hereby agree and give consent for the disclosure by HSBC India of all or any such:/ 2. तदनुसार, मैं/हम यह मानता/मानती/मानते तथा सम्मति देता/देती/देते हूँ/हैं कि बैंक सभी को या किसी को दे सकता है:
 - a) information and data relating to me/us; / a) मेरे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े;
 - b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed, by me/us; and/ b) मेरे/हमारे द्वारा धारण की गई/धारण की जानेवाली कोई क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित सूचना एवं डाटा।
 - c) default, if any, committed by me/us, in discharge of my/our such obligation; as HSBC India may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) and/or any other agency authorised in this behalf by RBI./ c) डिफॉल्ट (अक्षमता), यदि हो तो, तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त में, जिसे बैंक ने निर्धारित किया हो, जानकारी को किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), और/अथवा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को।
3. I/We, declare that the information and data furnished by me/us to HSBC India are true and correct./ 3. मैं/हम यह घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बैंक को दी गई जानकारी व आंकड़े सत्य हैं।
4. I/We, undertake that:/ 4. मैं/हम यह स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि:
 - a) the CIBIL and/or any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by HSBC India; and/ a) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसी जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहे तो बैंक द्वारा दी गई इस जानकारी और आंकड़ों का इस्तेमाल, व प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
 - b) the CIBIL and/or any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data of products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf./ b) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसियां, जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहे तो प्रोसेस हुई इस जानकारी और आंकड़ों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए बैंक/फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस और अन्य उधारी देने वालों को कंसीडरेशन के लिए दे सकते हैं।
5. I/We acknowledge that HSBC India remains entitled to assign any activities to any third party agencies/service providers at its sole discretion. I/We further acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account and sharing or transfer of information which will be on a confidential basis to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by HSBC India. HSBC India also may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request or direction of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us./ मैं/हम एतद्वारा स्वीकृति देते हैं कि बैंक किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसी/सेवा प्रदाताओं को अपने पूर्ण विवेक से देने का हकदार होगा। मेरा/हमारा खाता एवं सूचना को बांटने या हस्तांतरित करने के एचएसबीसी, इंडिया के अधिकारों को मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं, जो एचएसबीसी समूह कार्यालयों या अन्य तृतीय पक्ष एजेंसियों सेवा प्रदाताओं को गोपनीयता के आधार पर दिया जायेगा, चाहे वे एचएसबीसी, इंडिया द्वारा किसी भी प्रकृति की सपोर्ट सेवाओं को धारण करने के उद्देश्य से भारत में या विदेश में स्थित हों तथा सूचना प्रकट कर सकेगा, यदि किसी विधि, नियम या विनियम द्वारा चाही गई हो या अनुमति हो या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण द्वारा चाही गई हो, या यदि उक्त प्रकटीकरण किसी धोखाधड़ी को रोकने के लिये चाहा गया हो, मेरे/हमारे अधिक विनिर्दिष्ट अधिकारीता के बिना दिया जा सकेगा।

CRS, FATCA and CKYCR Declaration/Consent clause:/ सीआरएस, फटका (FATCA) और सीकेवाईसीआर घोषणा/सहमति खंड:

I/We have read and understood the information requirements and the Terms and Conditions mentioned in this Form (and hereby confirm that the information provided by me/us on this Form is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby agree and confirm to inform HSBC India for any modification to this information promptly. I/We further agree to abide by the provisions relating to 'Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) on Automatic Exchange of Information (AEOI) provided in Rules 114F to 114H of the Income Tax Rules, 1962'./ मैंने/हमने इस फॉर्म में उल्लिखित जानकारी की आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। मैं/हम इस जानकारी में किसी संशोधन को एचएसबीसी इंडिया को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसकी पुष्टि करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम विदेशी मुद्रा खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के नियम 114F में 114H में उपबंधित सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (EOI) के सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (CRS) का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

I/We authorize HSBC India to update your records basis the above information. I/We also authorize HSBC India to share the given information provided by me/us with the any statutory/regulatory authorities, or HSBC group entities, as appropriate./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को उपर्युक्त जानकारी के आधार पर मेरे/हमारे रिकॉर्ड

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता/करते हैं/हैं। मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को किसी भी वैधानिक/विनियामक प्राधिकरण या एचएसबीसी समूह की संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी को उचित रूप में साझा करने के लिए अधिकृत करता/करते हैं/हैं।

I/We understand that the details provided in the form will be reconciled with your existing records and any discrepancy thereof will be duly highlighted to me/us for further rectification/ update of records./ मैं/हम यह समझता/समझते हैं/हैं कि फॉर्म में प्रदान किए गए विवरणों को आपके मौजूदा रिकॉर्ड के साथ समेट दिया जाएगा और रिकॉर्ड के आगे सुधार/अपडेशन के लिए किसी भी विवेक के बारे में मुझे/हमें सूचित किया जाएगा।

I/We acknowledge that the information contained in this form and information regarding the account holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the account holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम स्वीकार करता/करते हैं/हैं कि इस फॉर्म में निहित जानकारी और खाताधारक या किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते (खातों) के बारे में जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों/क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We certify that I/we am/are the account holder (or am/are authorized to sign for the account holder) of all the account(s) to which this form relates. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं/हैं कि मैं/हम खाताधारक हूँ/हैं (या खाताधारक के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं) जो यह फॉर्म से संबंधित है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी पाई जाती है, तो मैं/हम जानता/जानते हैं/हैं कि मैं/हम इसके लिए उत्तरदायी हो सकता/सकते हैं/हैं।

I/We hereby consent for receiving information from Central KYC Registry through SMS/E-mail on the above mentioned registered number/e-mail address./ मैं/हम उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत देता/देते हैं/हैं।

I/We certify that where I/we have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to HSBC and that such information may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं/हैं कि जहाँ मैंने/हमने किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि एक नियंत्रक व्यक्ति या रिपोर्ट करने योग्य अन्य व्यक्ति जिससे यह फॉर्म संबंधित है) के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो कि मैं/हम इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर उन व्यक्तियों को सूचित करूंगा/करेंगे कि मैंने/हमने एचएसबीसी को इस तरह की जानकारी प्रदान की है और यह जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों / क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We undertake to advise HSBC India within 30 days of any change in my circumstances which affects the tax residency status or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide HSBC with a suitably updated self-certification and declaration within 90 days of such change in circumstances./ मैं/हम अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी इंडिया को सूचित करने का वचन देता/देते हैं/हैं, जो कर निवासी की स्थिति को प्रभावित करता है या इसमें निहित जानकारी को गलत बनाता है, और परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव के 90 दिन के भीतर एचएसबीसी इंडिया को उपयुक्त रूप से अद्यतन स्व-प्रमाणन और घोषणा प्रदान करूंगा/करेंगे।

E-mail Statement/ ईमेल स्टेटमेंट:

I/We may opt to receive the account statement on e-mail pursuant to which HSBC India will send the Statement in an electronic format to my e-mail ID specified on HSBC India's records. I/We agree, confirm and understand that in the event of opting to so receive statements vide e-mail, no physical statement will be sent to me/us by HSBC India. I/We shall notify HSBC India of any change in my/ our e-mail ID. HSBC India will be deemed to have delivered the statement to me/us upon HSBC India not receiving a delivery failure notification. Should I/We experience any difficulty in accessing the electronically delivered statement, I/we shall promptly advise HSBC India for delivery through alternate means. Failure to advise HSBC India of such difficulty within 30 days after receiving the statement shall serve as an affirmation regarding the acceptance of the statement by me/us. I/We confirm(s) that I/we is/are aware of all security risks involved in receiving the electronically delivered statement. I/We agree(s) that I/we shall not hold HSBC India in any way responsible for the same. I/We agree that the statement will not be generated if no transactions are effected during the stipulated period of the statement cycle. I/We agree that duplicate statements of past transactions are issued against payment of charges as per HSBC India's current Tariff. In case of receiving e-statements through HSBC Internet Banking, I/We agree to be bound by the terms and conditions mentioned on the website www.hsbc.co.in./ मैं/हम ई-मेल पर खाता स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके अनुसरण में एचएसबीसी इंडिया द्वारा एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज मेरी/हमारी ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में स्टेटमेंट भेजा जाएगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं, पुष्टि करता/करते हैं/हैं और समझता/समझते हैं/हैं कि ई-मेल के जरिए स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। मैं/हम अपने/हमारे ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के एचएसबीसी इंडिया को सूचित करूंगा/करेंगे। एचएसबीसी को डिलीवरी विफल होने की सूचना नहीं मिलने पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें स्टेटमेंट दिया गया माना जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए स्टेटमेंट को देखने में मुझे/हमें कोई कठिनाई महसूस होती है, तो मैं/हम तुरंत वैकल्पिक साधनों के माध्यम से डिलीवरी के लिए एचएसबीसी को सूचित करेंगे। स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी को इस तरह की कठिनाई से अवगत कराने में विफलता मेरे/हमारे द्वारा स्टेटमेंट की स्वीकृति के संबंध में एक पुष्टि के रूप में काम करेगी। मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं/हैं कि मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित स्टेटमेंट प्राप्त करने में निहित सभी सुरक्षा जोखिमों से अवगत हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि यदि स्टेटमेंट चक्र की निर्धारित अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि पिछले लेनदेन के डुप्लिकेट स्टेटमेंट बैंक के वर्तमान प्रशुल्क के अनुसार शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं। एचएसबीसी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के मामले में, मैं/हम वेबसाइट www.hsbc.co.in पर उल्लिखित नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

Global Services Consent/ ग्लोबल सर्विसेज कन्सेंट:

To enable HSBC India and other members of the HSBC Group* in providing HSBC Premier global services./ एचएसबीसी इंडिया तथा एचएसबीसी ग्रुप* के अन्य सदस्यों को एचएसबीसी प्रीमियर ग्लोबल सर्विसेज देना।

I/We fully authorise HSBC India and such other member of the HSBC Group, to share all information relating to me/us and my/our accounts, including, without limitation, any personal information and other credit information maintained with or obtained by HSBC India (including those obtained from credit reference agencies) and other members of the HSBC Group./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी ग्रुप के ऐसे ही अन्य सदस्यों को पूरी तरह यह अधिकार देता/देते हैं/हैं कि वे मेरे/हमारे खाते से जुड़ी जानकारी, जिसमें, बिना किसी बंधन, शामिल है व्यक्तिगत जानकारी व अन्य क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, जो एचएसबीसी इंडिया द्वारा रखी एवं प्राप्त की गई हो (जिसमें क्रेडिट रेंफ्रेस एजेंसिस द्वारा जुटाई गई जानकारी भी शामिल है), को अन्य लोगों को, तथा एचएसबीसी ग्रुप के अन्य सदस्यों को दे सकें।

I/We further authorise HSBC India and all members of the HSBC Group to use, store, process, disclose and transfer (whether within or outside the jurisdiction concerned and whether within or outside the HSBC Group) all information (including, without limitation, information relating to the debts), relating to me/us, as they shall consider necessary in connection with the provision of HSBC Premier global services./ इसी के साथ, मैं/हम एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी ग्रुप के अन्य सदस्यों को पूरी तरह यह अधिकार देता/देते हैं/हैं कि वे चाहें तो इस जानकारी (जिसमें शामिल है, बिना बंधन के, डेट्स संबंधित जानकारी) को दे सकें व इसका उपयोग, स्टोर, प्रोसेस, बता और ट्रांसफर (संबंधित कार्यक्षेत्र के अंदर या बाहर और एचएसबीसी ग्रुप के अंदर या बाहर की ओर) कर सकें, जो एचएसबीसी प्रीमियर ग्लोबल सर्विसेज के प्रावधानों के साथ उन्हें जरूरी लगे।

I/We acknowledge and agree that any such sharing or transfer of information will be on a confidential basis and that HSBC India or HSBC Group offices or other third party service providers, whether located in India or overseas, may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud./ मैं/हम मानता/ती/ते हूँ/हैं कि इस जानकारी को बताने या हस्तांतरण करने का काम पूरी गुप्तता के साथ किया जाएगा और यह भी कि एचएसबीसी इंडिया या एचएसबीसी ग्रुप कार्यालयों या किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, जो भारत में स्थित है या विदेश में, यदि किसी कानून, नियम या विनियामक या सार्वजनिक या नि्यामक प्राधिकरण या किसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक हुआ तो वे इस जानकारी को इन्हें देंगे।

I/We also undertake to indemnify HSBC India for any loss (including but not limited to tax liability, interest and penalty) suffered by HSBC India as a result of either relying upon this declaration or due to my/our delay/default in confirming the change, if any, of the declarations mentioned above. This indemnity shall

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

survive the termination of relationships held by me/us with HSBC India/ मैं/हम या तो इस घोषणा पर निर्भर होने के परिणामस्वरूप या ऊपर वर्णित घोषणाओं में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, की पुष्टि करने में मेरी/हमारी ओर से विलम्ब/चूक के कारण एचएसबीसी इंडिया को हुए किसी भी नुकसान (कर देयता, ब्याज और जुर्माना सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है) के लिए एचएसबीसी इंडिया को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं. यह क्षतिपूर्ति एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे/हमारे द्वारा धारित संबंधों के समापन पर भी विद्यमान रहेगी.

Customer Declaration - Non-Resident/ ग्राहक घोषणा - गैर-निवासियों के लिए

I/We confirm having read and understood the account rules/terms and conditions governing the account(s) and the various services including not limited to Debit Card/ATM/Mobile alerts in respect of the account(s), as amended from time to time by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) as made available on www.hsbc.co.in and hereby agree to be bound by the same./ मैं/हम खाते (खातों) को और खाते (खातों) के संबंध में डेबिट कार्ड/ एटीएम/मोबाइल अलर्ट सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न सेवाओं को नियंत्रित करने वाले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित और www.hsbc.co.in पर उपलब्ध कराए गए खाता नियमों/विनियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लेने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं, और एतद्वारा उनसे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं.

I/We declare that I/we am/are a tax resident/non-resident as per the provisions of Section 6 of the Indian Income-tax Act, 1961. In case there is any change in the tax residential status I/we undertake to promptly inform HSBC India about the same in writing./ मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम कर निवासी/ अनिवासी हूँ/हैं. कर निवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को लिखित में उसके बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं.

I/We hereby confirm having agreed to receive all service communications from HSBC India on an ongoing basis through e-mails sent to the e-mail IDs registered by me/us with HSBC India. The communication may include account related information, certificates, bank notices and account statements./ मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी इंडिया के पास मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे गए ई-मेल के माध्यम से सतत आधार पर एचएसबीसी इंडिया से सभी सेवा संप्रेषण/संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ/हैं. संप्रेषण/संचार में खाता संबंधी जानकारी, प्रमाण पत्र, बैंक नोटिस और खाता स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं.

I/We declare that the information given herein by me/us is true and correct, which HSBC India is entitled to verify directly or through any third party agent. / मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य/सही है, जिसे एचएसबीसी इंडिया सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है.

I/We also agree that, if any such declarations made by me/us are found to be incorrect, HSBC India is not bound to pay any interest on the account(s) opened by me/us and is entitled to restrict operations in the account and/or terminate the account relationship./ मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि, अगर मेरे द्वारा की गई ऐसी कोई भी घोषणा गलत पाई जाती है, तो एचएसबीसी इंडिया मेरे/हमारे द्वारा खोले गए खाते पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है और परिचालन को प्रतिबंधित करने और/या खाता संबंध समाप्त करने का हकदार है.

I/We will also be liable to comply with the relevant Exchange Control Regulations issued and amended by Reserve Bank of India from time to time and adhere with the provisions under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)./ मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित किए गए संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम नियंत्रण विनियमों का पालन करने के लिए दायी हूँ/होगे और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों का अनुपालन करूँगा/करेंगे.

I/We agree and confirm that HSBC India reserves the right to restrict account operation by giving prior notice of 30 days, if account related correspondence sent by HSBC India on the correspondence address recorded with HSBC India, is returned undelivered on two consecutive occasions due to any reasons whatsoever and the said restrictions will be removed once I/we update the correct address on HSBC India's records with address proof, or when I/we confirm that the current correspondence address on HSBC India's records is correct./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि यदि एचएसबीसी इंडिया के पास दर्ज किए गए पत्राचार पते पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा खाते से संबंधित पत्राचार किसी भी कारण से दो लगातार अवसरों पर वितरित हुए बिना लौटा दिया जाता है तो एचएसबीसी इंडिया 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर खाता संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उक्त प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब मैं/हम पते के प्रमाण के साथ एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में सही पते को अपडेट करता/करते हूँ/हैं, या जब मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में वर्तमान पत्राचार पता सही है.

I/We confirm that The funds withdrawn from the account of the minor, from time to time, will be utilised only for the benefit of the minor./ मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि अवयस्क से समय-समय पर निकाले गए धन का उपयोग केवल अवयस्क के लाभ के लिए किया जाएगा.

I/We understand and acknowledge that:/ मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

- Changes in laws and rules in India governing NRI deposits may affect the liability of HSBC India to repay any depositor outside India/ एनआरआई जमाओं को अभिशासित करने वाले भारत में कानूनों और नियमों में परिवर्तन भारत के बाहर किसी भी जमाकर्ता को चुकाने के लिए एचएसबीसी इंडिया के दायित्व को प्रभावित कर सकता है.
- Deposits/Investments made with non-UK members of the group do not benefit from the protection provided under the UK Financial Services and Markets Act 2000, including the UK Financial Services Compensation Scheme/ समूह के गैर-यूके सदस्यों के साथ किए गए जमा / निवेश को यूके वित्तीय सेवा प्रतिकर योजना सहित यूके फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स एक्ट 2000 के तहत प्रदान किए गए संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.
- NRI deposits with HSBC India are not insured by Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) of the USA, nor by any other insurance company or corporation outside India/ एचएसबीसी इंडिया के पास एनआरआई जमाधारियों न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत होती हैं.
- Under current US tax laws, US citizens and residents are subject to tax on their worldwide income (please consult your tax advisor regarding the tax treatment of these deposits in USA, or any other country where you are subject to tax, including your country of residence/nationality)/ वर्तमान अमेरिकी कर कानूनों के तहत, अमेरिकी नागरिक और निवासी अपनी विश्वव्यापी आय पर कर के अधीन हैं (कृपया अपने निवास देश और राष्ट्रियता सहित यूएसए या किसी अन्य देश जहां आप कर के अधीन हैं, में इन जमाओं के कर निरूपण के बारे में अपने कर सलाहकार से परामर्श करें).

I/We agree and accept that HSBC India may need to share or transfer data or information about the customer(s) to any third party service provider, whether located overseas or in India, who provides outsourced services to HSBC India in connection with the operation of HSBC India's business, in accordance with the applicable guidelines of the Reserve Bank of India. Any such sharing or transfer of information will be done strictly on a confidential basis and HSBC India will endeavour to maintain strict confidentiality of such information. However, HSBC India or such third party service providers, whether located in India or overseas, may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/ us./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया को किसी भी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, चाहे वह विदेशों में या भारत में स्थित हो, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार एचएसबीसी इंडिया के व्यवसाय के परिचालन के संबंध में एचएसबीसी इंडिया को आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करता है, के साथ डेटा या जानकारी (ग्राहक) को साझा करने या ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो सकती है. इस तरह की कोई भी जानकारी गोपनीय तरीके से साझा या ट्रांसफर की जाएगी और एचएसबीसी इंडिया ऐसी सूचनाओं की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करेगा. हालांकि, एचएसबीसी इंडिया या ऐसे तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, जो भारत में या विदेशों में स्थित हैं, यदि किसी कानून, नियम या विनियमन या किसी सार्वजनिक या नियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर या यदि इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो अथवा यदि ऐसा प्रकटन धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से चाहिए तो मुझसे/हमसे किसी अतिरिक्त सहमति या प्राधिकरण के बिना जानकारी को प्रकट कर सकते हैं.

I/We hereby undertake to intimate HSBC India about any change in my residential status i.e., upon my/our return to India for permanent settlement, for taking up employment, or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating my/our intention to stay in India for an uncertain period, immediately on arrival in India./ मैं/हम स्थायी निवास के लिए, या कोई नियोजन स्वीकार करने के लिए या कोई कारोबार या व्यवसाय शुरू करने के लिए या किसी अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने का इरादा सूचित करते हुए किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत लौटने पर अपने आवासीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में एचएसबीसी इंडिया को भारत में आगमन के तुरंत बाद सूचित करने का एतद्वारा वचन देता/देते हूँ/हैं.

I/We declare that I/we am/are a tax resident/non-resident as per the provisions of Section 6 of the Indian Income-tax Act, 1961. In case there is any change in the tax residential status I/we undertake to promptly inform HSBC India in writing./ मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम कर निवासी/अनिवासी हूँ/हैं. यदि कर आवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन है तो मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को लिखित में तुरंत सूचित

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

I/We further declare that the information given herein by me/us is true and correct and HSBC India is entitled to verify the same either directly or through any third party agent./ मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है और एचएसबीसी इंडिया सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से उसे सत्यापित करने का हकदार है।

I/We confirm having received, read and understood HSBC India's account rules, and hereby agree to be bound by the terms and conditions governing the account(s)./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया के खाता नियमों को प्राप्त करने, पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और इसके बाद खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I/We understand that the NRE account(s)/NRE fixed deposits/FCNR(B) deposits held jointly with resident close relative (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) will be operated on 'former or survivor basis'./ मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि निवासी निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित के अनुसार) के साथ संयुक्त रूप से धारित एनआरआई खाता / एनआरआई सावधि जमा / एफसीएनआर (बी) जमा खाते 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी व्यक्ति के आधार' पर परिचालित किए जाएंगे।

For Aadhaar only/ केवल आधार के लिए:

This is to confirm that I/we am/are voluntarily providing a physical copy of my Aadhaar card / e-Aadhaar card in a masked form to HSBC for the purpose of establishing my/our identity / address proof to set up a banking relationship and process instructions in relation to the same. I hereby provide my consent for verification of my Aadhaar to establish its genuineness through such means acceptable as per UIDAI or under any Act or law from time to time. The consent and purpose of collecting Aadhaar have been explained to me and I confirm having understood the same. I acknowledge that the Bank will store the said Aadhaar number in a masked form in their records and use the same for such purposes as may be permitted. I also acknowledge that the Bank has provided me/us with alternate options in terms of identity documents that could be provided in lieu of Aadhaar for setting up a banking relationship./ पुष्टि की जाती है कि मैं/हम एक बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पहचान/पते के प्रमाण के सत्यापन हेतु और उसके संबंध में अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए एचएसबीसी को अपने आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की एक भौतिक प्रति एक छद्मवैधी रूप में स्वेच्छा से प्रदान कर रहा/रहे हूँ/हैं। मैं ऐसे साधनों के माध्यम से अपने आधार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए एतद्वारा अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जो यूआईडीईआई या किसी अधिनियम या कानून के तहत समय-समय पर स्वीकार्य हो। आधार एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे समझाया गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उसे समझ लिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक उक्त आधार संख्या को अपने रिकॉर्ड में एक छद्मवैधी रूप में संग्रहीत करेगा और ऐसे उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करेगा, जो अनुमत हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि बैंक ने मुझे पहचान पत्र के संदर्भ में वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए हैं जो बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए आधार के बदले प्रदान किए जा सकते हैं।

Non-Resident Indian (NRI) deposits are under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the rules in effect from time to time relating to such programmes, are subject to the sovereign risk arising from and governed by the laws of, or any changes to the laws of India./ अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा राशियां अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्रम के तहत होते हैं और समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रमों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होते हैं, भारत के कानूनों या उनमें परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन होते हैं और इनके द्वारा शासित होते हैं।

NRI deposits/accounts are held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) and are not insured by any insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch of the Bank in India where the deposit is made./ एनआरआई जमा राशियां/खाते हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) के पास रखे जाते हैं और भारत के बाहर किसी बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत नहीं किये जाते हैं और केवल भारत में बैंक की उस शाखा में देय होते हैं जहाँ जमा किया जाता है।

Non-Resident (NR) accounts and Non-Resident Indian (NRI) services are offered by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the extant rules and regulations and the applicable laws of India, relating to such programmes, and are subject to the sovereign risk arising from any changes to such laws/rules/regulations./ अनिवासी भारतीय (एनआर) खाते और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेवाएं अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यक्रम के तहत हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा प्रदान की जाती हैं और ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित वर्तमान नियम और कानूनों और भारत के लागू कानूनों द्वारा नियंत्रित हैं, और ऐसे कानूनों/नियमों/विनियमों में किसी भी बदलाव से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन हैं।

Approved for issue in the UK by HSBC Bank plc. 8 Canada Square, London E14 5HQ. Deposits/investments made with non-UK members of the group do not benefit from the protection provided under the UK Financial Services and Markets Act 2000, including the UK Financial Services Compensation Scheme./ यूके में एचएसबीसी बैंक पीएलसी, 8 कनाडा स्क्वायर, लंदन E14 5HQ द्वारा यूके में जारी करने के लिए अनुमोदित, समूह के गैर-यूके सदस्यों के पास किए गए जमा/निवेश यूके वित्तीय सेवाएं प्रतिकर योजना सहित यूके वित्तीय सेवाएं और बाजार अधिनियम, 2000 के तहत प्राप्त संरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।

NR deposits are offered under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the rules in effect from time to time relating to such programmes, are subject to the sovereign risk arising from, and governed by the laws of, or any changes to the laws of India. NR deposits with the Bank in India are not insured by Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) of the USA, nor by any other insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch in India where the deposit is made./ अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यक्रम के तहत अनिवासी जमा राशियों की पेशकश की जाती है और समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रमों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होते हैं, भारत के कानूनों या उनमें परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन होते हैं और इनके द्वारा शासित होते हैं। भारत में बैंकों के पास अनिवासी जमा राशियां यूएसए के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत नहीं होती हैं और केवल भारत में उस शाखा में देय होती हैं जहाँ जमा किया जाता है।

Under current US tax laws, US citizens and residents are subject to tax on their worldwide income. You should consult your tax advisor for the US treatment of income from these deposits./Under current US tax laws, US citizens and residents are subject to tax on their worldwide income. You should consult your tax advisor for the US treatment of income from these deposits./ मौजूदा अमेरिकी कर कानूनों के तहत, अमेरिकी नागरिक और निवासी अपनी विश्वव्यापी आय पर कर के अधीन हैं। आपको इन जमाओं से होने वाली आय के अमेरिकी निरूपण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

NRI accounts and services are offered by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India). HSBC India is a branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited has a Representative Office in the UAE licenced by the Central Bank of the United Arab Emirates./ हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा एनआरआई खातों और सेवाओं की पेशकश की जाती है। एचएसबीसी इंडिया, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक शाखा है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय है।

Deposits/accounts held with HSBC India are not protected deposit and are not protected by Deposit Protection Scheme in Hong Kong.

For Residents within Kingdom of Bahrain, we remind you that deposits made with HSBC India do not benefit from the protection provided under the Deposit Protection Scheme established by the Central Bank of Bahrain regulation concerning the establishment of a Deposit Protection Scheme and a Deposit Protection Board./

एचएसबीसी इंडिया के पास धारित जमाएं/खाते संरक्षित जमा नहीं हैं और हांगकांग में जमा संरक्षण योजना द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

किंगडम ऑफ बहरीन के निवासियों के लिए, हम आपको याद दिलाते हैं कि एचएसबीसी इंडिया के पास की गई जमाओं को जमा संरक्षण योजना और जमा संरक्षण बोर्ड की स्थापना से संबंधित बहरीन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित जमा संरक्षण योजना के तहत उपलब्ध संरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

NRI services are provided by HSBC India. HSBC India is the branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and HSBC India is not regulated in Canada. NR deposits with the Bank in India are not insured by Canadian Deposit Insurance Corporation (CDIC), nor by any other insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch of the Bank in India where the deposit is made. You should consult your tax advisor for the Canada treatment of income from these deposits./ एनआरआई सेवाएं एचएसबीसी इंडिया द्वारा प्रदान की जाती हैं। एचएसबीसी इंडिया हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शाखा है और एचएसबीसी इंडिया कनाडा में विनियमित नहीं है। भारत में बैंक के पास अनिवासी जमा राशियां न तो कनाडाई डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (सीडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत होती हैं और केवल भारत में बैंक की उस शाखा में देय होती है जहाँ जमा किया जाता है। इन जमाओं से होने वाली आय के कनाडा निरूपण के लिए आपको अपने कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

Deposits and accounts held with HSBC India are not protected by the Australian Financial Claims Scheme./ एचएसबीसी इंडिया के पास धारित जमा और खाते ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय दावा योजना द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

For debit Cardholders: I/We confirm having read and understood the terms and conditions of usage of the debit card and agree to be bound by the same./
डेबिट कार्डधारकों के लिए: मैं/हम डेबिट कार्ड के उपयोग के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और उससे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

For ATM funds transfer: I/We authorise HSBC India to transfer funds from my/our account through the ATM, subject to HSBC India's policies, to the third party beneficiaries as specified during operation of the ATM./ **एटीएम निधि अंतरण के लिए:** मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को एटीएम के परिचालन के दौरान निर्दिष्ट रूप में किसी अन्य पक्ष लाभार्थी को एचएसबीसी इंडिया की नीतियों के अधीन एटीएम के माध्यम से मेरे/हमारे खाते से निधियाँ अंतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

I/We understand and acknowledge that: / मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

- HSBC India does not provide any tax advice and service to its customers./ एचएसबीसी इंडिया अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कर-सलाह नहीं देते हैं।
- I/We understand it is my/our responsibility to comply with tax laws and accordingly I/we would comply with the worldwide tax reporting and filing obligation as applicable to me/us./ मैं/हम यह मानता/मानते हूँ/हैं कि कर-कानून का पालन करने और तदनुसार आय-कर विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी है। मैं/हम वर्ल्डवाइड टैक्स रिपोर्टिंग का पालन करूंगा/करेंगे तथा तदनुसार लागू एवं प्रचलित नियमों के अनुसार विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा/उठाऊंगे।
- I/We am/are obliged to provide any information requested by HSBC India, that is required by law./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को, कानून द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
- I/We understand that where a referral by HSBC India is made to an external organisation for specific tax advice for me/us, the contract for such tax advice is between me/us and the third party, and any advice provided is the responsibility of such third party, and not HSBC India./ मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी बाह्य संस्था से मेरी/हमारी विशिष्ट कर-सलाह के बारे में जानकारी मांगने पर, वह अनुबंध मेरे/हमारे तथा तृतीय पक्ष के बीच होगा, तथा ऐसी किसी भी प्रकार की सलाह तृतीय पक्ष की होगी, न कि एचएसबीसी इंडिया की।

Consent clause: / सम्मति शर्त:

1. I/We, understand that as a pre-condition, relating to grant of the loan/advances/other non-fund based credit facilities to me/us, HSBC India, requires my/our consent for the disclosure by HSBC India of, information and data relating to me/us, of the credit facility availed of/to be availed, by me/us, obligations assumed, by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/us, in discharge thereof./ 1. मैं/हम बैंक को, बैंक की नीति अनुसार व एटीएम के संचालन के अनुसार तीसरे पक्ष को मेरे/अपने एटीएम से पैसा हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं कि पूर्व-शर्त के अनुसार, मुझे/हमें दिए गए/दिए जाने वाले तथा सभी तरह के कर्ज/अग्रिम/अन्य नॉन-फंड-बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटीज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है व इन्हें बैंक ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारा बताने के लिए हमारी सम्मति है तथा अपनी देनदारी चुका न पाने की स्थिति में हम इनकी भरपायी का आश्वासन देते हैं।
2. Accordingly, I/we, hereby agree and give consent for the disclosure by HSBC India of all or any such:/ 2. तदनुसार, मैं/हम यह मानता/मानती/मानते तथा सम्मति देता/देती/देते हूँ/हैं कि बैंक सभी को या किसी को दे सकता है:
 - a) information and data relating to me/us; / a) मेरे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े;
 - b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed, by me/us; and/ b) मेरे/हमारे द्वारा धारण की गई/धारण की जानेवाली कोई क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित सूचना एवं डाटा।
 - c) default, if any, committed by me/us, in discharge of my/our such obligation; as HSBC India may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) and/or any other agency authorised in this behalf by RBI./ c) डिफॉल्ट (अक्षमता), यदि हो तो, तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त में, जिसे बैंक ने निर्धारित किया हो, जानकारी को किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), और/अथवा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को।
3. I/We, declare that the information and data furnished by me/us to HSBC India are true and correct./ 3. मैं/हम यह घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बैंक को दी गई जानकारी व आंकड़े सत्य हैं।
4. I/We, undertake that:/ 4. मैं/हम यह स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि:
 - a) the CIBIL and/or any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by HSBC India; and/ a) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसी जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहें तो बैंक द्वारा दी गई इस जानकारी और आंकड़ों का इस्तेमाल, व प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
 - b) the CIBIL and/or any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data of products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf./ b) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसियाँ, जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहें तो प्रोसेस हुई इस जानकारी और आंकड़ों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए बैंक/फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूट्स और अन्य उधारी देने वालों को कन्सीडरेशन के लिए दे सकते हैं।
5. I/We acknowledge that HSBC India remains entitled to assign any activities to any third party agencies/service providers at its sole discretion. I/We further acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account and sharing or transfer of information which will be on a confidential basis to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by HSBC India. HSBC India also may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request or direction of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us./ मैं/हम एतद्वारा स्वीकृति देते हैं कि बैंक किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसी/सेवा प्रदाताओं को अपने पूर्ण विवेक से देने का हकदार होगा। मेरा/हमारा खाता एवं सूचना को बांटने या हस्तांतरित करने के एचएसबीसी, इण्डिया के अधिकारों को मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं, जो एचएसबीसी समूह कार्यालयों या अन्य तृतीय पक्ष एजेंसियों सेवा प्रदाताओं को गोपनीयता के आधार पर दिया जाएगा, चाहे वे एचएसबीसी, इण्डिया द्वारा किसी भी प्रकृति की सपोर्ट सेवाओं को धारण करने के उद्देश्य से भारत में या विदेश में स्थित हों तथा सूचना प्रकट कर सकेगा, यदि किसी विधि, नियम या विनियम द्वारा चाही गई हो या अनुमति हो या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण द्वारा चाही गई हो, या यदि उक्त प्रकटीकरण किसी धोखाधड़ी को रोकने के लिये चाहा गया हो, मेरे/हमारे अधिक विनिर्दिष्ट अधिकारीता के बिना दिया जा सकेगा।

CRS, FATCA and CKYCR Declaration/Consent clause:/ सीआरएस, फटका (FATCA) और सीकेवाईसीआर घोषणा/सहमति खंड:

I/We have read and understood the information requirements and the Terms and Conditions mentioned in this Form (and hereby confirm that the information provided by me/us on this Form is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby agree and confirm to inform HSBC India for any modification to this information promptly. I/We further agree to abide by the provisions relating to 'Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) on Automatic Exchange of Information (AEOI) provided in Rules 114F to 114H of the Income Tax Rules, 1962'./ मैंने/हमने इस फॉर्म में उल्लिखित जानकारी की आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। मैं/हम इस जानकारी में किसी संशोधन को एचएसबीसी इंडिया को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसकी पुष्टि करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम विदेशी मुद्रा खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के नियम 114F में 114H में उपबंधित सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (EOI) के सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (CRS) का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

I/We authorize HSBC India to update your records basis the above information. I/We also authorize HSBC India to share the given information provided by me/us with the any statutory/regulatory authorities, or HSBC group entities, as appropriate./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को उपर्युक्त जानकारी के आधार पर मेरे/हमारे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को किसी भी वैधानिक/विनियामक प्राधिकरण या एचएसबीसी समूह की संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी को उचित रूप में साझा करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं।

I/We understand that the details provided in the form will be reconciled with your existing records and any discrepancy thereof will be duly highlighted to me/us for further rectification/ updation of records./ मैं/हम यह समझता/समझते हूँ/हैं कि फॉर्म में प्रदान किए गए विवरणों को आपके मौजूदा रिकॉर्ड के साथ समेट दिया जाएगा और रिकॉर्ड के आगे सुधार/अपडेशन के लिए किसी भी विवेक के बारे में मुझे/हमें सूचित किया जाएगा।

I/We acknowledge that the information contained in this form and information regarding the account holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the account holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में निहित जानकारी और खाताधारक या किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते (खातों) के बारे में जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर

Please initial below/ कृपया नीचे आइशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों/क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We certify that I/we am/are the account holder (or am/are authorized to sign for the account holder) of all the account(s) to which this form relates. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम खाताधारक हूँ/हैं (या खाताधारक के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं) जो यह फॉर्म से संबंधित है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी पाई जाती है, तो मैं/हम जानता/जानते हूँ/हैं कि मैं/हम इसके लिए उत्तरदायी हो सकता/सकते हूँ/हैं।

I/We hereby consent for receiving information from Central KYC Registry through SMS/E-mail on the above mentioned registered number/e-mail address./ मैं /हम उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत देता/देते हूँ/हैं।

I/We certify that where I/we have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to HSBC and that such information may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि जहाँ मैंने/हमने किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि एक नियंत्रक व्यक्ति या रिपोर्ट करने योग्य अन्य व्यक्ति जिससे यह फॉर्म संबंधित है) के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो कि मैं/हम इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर उन व्यक्तियों को सूचित करूंगा/करेंगे कि मैंने/हमने एचएसबीसी को इस तरह की जानकारी प्रदान की है और यह जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों / क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We undertake to advise HSBC India within 30 days of any change in my/our circumstances which affects the tax residency status or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide HSBC India with a suitably updated self-certification and declaration within 90 days of such change in circumstances./ मैं/हम अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी इंडिया को सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं, जो कर निवासी की स्थिति को प्रभावित करता है या इसमें निहित जानकारी को गलत बनाता है, और परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव के 90 दिन के भीतर एचएसबीसी इंडिया को उपयुक्त रूप से अद्यतन स्व-प्रमाणन और घोषणा प्रदान करूंगा/करेंगे।

E-mail Statement:/ ईमेल स्टेटमेंट:

I/We may opt to receive the account statement on e-mail pursuant to which HSBC India will send the Statement in an electronic format to my e-mail ID specified on HSBC India's records. I/We agree, confirm and understand that in the event of opting to so receive statements vide e-mail, no physical statement will be sent to me/us by HSBC India. I/We shall notify HSBC India of any change in my/our e-mail ID. HSBC India will be deemed to have delivered the statement to me/us upon HSBC India not receiving a delivery failure notification. Should I/We experience any difficulty in accessing the electronically delivered statement, I/we shall promptly advise HSBC India for delivery through alternate means. Failure to advise HSBC India of such difficulty within 30 days after receiving the statement shall serve as an affirmation regarding the acceptance of the statement by me/us. I/We confirm(s) that I/we is/are aware of all security risks involved in receiving the electronically delivered statement. I/We agree(s) that I/we shall not hold HSBC India in any way responsible for the same. I/We agree that the statement will not be generated if no transactions are effected during the stipulated period of the statement cycle. I/We agree that duplicate statements of past transactions are issued against payment of charges as per HSBC India's current Tariff. In case of receiving e-statements through HSBC Internet Banking, I/We agree to be bound by the terms and conditions mentioned on the website www.hsbc.co.in./ मैं/हम ई-मेल पर खाता स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके अनुसरण में एचएसबीसी इंडिया द्वारा एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज मेरी/हमारी ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में स्टेटमेंट भेजा जाएगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं, पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और समझता/समझते हूँ/हैं कि ई-मेल के जरिए स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। मैं/हम अपने/हमारे ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के एचएसबीसी इंडिया को सूचित करूंगा/करेंगे। एचएसबीसी को डिलीवरी विफल होने की सूचना नहीं मिलने पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें स्टेटमेंट दिया गया माना जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए स्टेटमेंट को देखने में मुझे/हमें कोई कठिनाई महसूस होती है, तो मैं/हम तुरंत वैकल्पिक साधनों के माध्यम से डिलीवरी के लिए एचएसबीसी को सूचित करेंगे। स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी को इस तरह की कठिनाई से अवगत कराने में विफलता मेरे/हमारे द्वारा स्टेटमेंट की स्वीकृति के संबंध में एक पुष्टि के रूप में काम करेगी। मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित स्टेटमेंट प्राप्त करने में निहित सभी सुरक्षा जोखिमों से अवगत हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि यदि स्टेटमेंट चक्र की निर्धारित अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि पिछले लेनदेन के डुब्लिकेट स्टेटमेंट बैंक के वर्तमान प्रशुल्क के अनुसार शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं। एचएसबीसी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के मामले में, मैं/हम वेबसाइट www.hsbc.co.in पर उल्लिखित नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

Global Services Consent:/ ग्लोबल सर्विसेज कन्सेंट:

To enable HSBC India and other members of the HSBC Group* in providing HSBC Premier global services./ एचएसबीसी इंडिया तथा एचएसबीसी ग्रुप* के अन्य सदस्यों को एचएसबीसी प्रीमियर ग्लोबल सर्विसेज देना।

I/We fully authorise HSBC India and such other member of the HSBC Group, to share all information relating to me/us and my/our accounts, including, without limitation, any personal information and other credit information maintained with or obtained by HSBC India (including those obtained from credit reference agencies) and other members of the HSBC Group./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी ग्रुप के ऐसे ही अन्य सदस्यों को पूरी तरह यह अधिकार देता/देते हूँ/हैं कि वे मेरे/हमारे खाते से जुड़ी जानकारी, जिसमें, बिना किसी बंधन, शामिल है व्यक्तिगत जानकारी व अन्य क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, जो एचएसबीसी इंडिया द्वारा रखी एवं प्राप्त की गई हो (जिसमें क्रेडिट रैंकेस एजेंसिस द्वारा जुटाई गई जानकारी भी शामिल है), को अन्य लोगों को, तथा एचएसबीसी ग्रुप के अन्य सदस्यों को दे सकें।

I/We further authorise HSBC India and all members of the HSBC Group to use, store, process, disclose and transfer (whether within or outside the jurisdiction concerned) whether within or outside the HSBC Group) all information (including, without limitation, information relating to the debts), relating to me/us, as they shall consider necessary in connection with the provision of HSBC Premier global services./ इसी के साथ, मैं/हम एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी ग्रुप के अन्य सदस्यों को पूरी तरह यह अधिकार देता/देते हूँ/हैं कि वे चाहे तो इस जानकारी (जिसमें शामिल है, बिना बंधन के, डेट्स संबंधित जानकारी) को दे सकें व इसका उपयोग, स्टोर, प्रोसेस, बता और ट्रांसफर (संबंधित कार्यक्षेत्र के अंदर या बाहर और एचएसबीसी ग्रुप के अंदर या बाहर की ओर) कर सकें, जो एचएसबीसी प्रीमियर ग्लोबल सर्विसेज के प्रावधानों के साथ उन्हें जरूरी लगे।

I/We acknowledge and agree that any such sharing or transfer of information will be on a confidential basis and that HSBC India or HSBC Group offices or other third party service providers, whether located in India or overseas, may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud./ मैं/हम मानता/ती/ते हूँ/हैं कि इस जानकारी को बताने या हस्तांतर करने का काम पूरी गुप्तता के साथ किया जाएगा और यह भी कि एचएसबीसी इंडिया या एचएसबीसी ग्रुप कार्यालयों या किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, जो भारत में स्थित है या विदेश में, यदि किसी कानून, नियम या नियामक या सार्वजनिक या नियामक प्राधिकरण या किसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक हुआ तो वे इस जानकारी को इन्हें देंगे।

Acknowledgement:/ अभिस्वीकृति:

I/We acknowledge that HSBC India remains entitled to assign any activities to any third party agencies/service providers at its sole discretion./ मैं/हम एतद्वारा स्वीकृति देते हैं कि बैंक किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसी/सेवा प्रदाताओं को अपने पूर्ण विवेक से देने का हकदार होगा।

I/We further acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account and sharing or transfer of information which will be on a confidential basis to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by HSBC India, and also may disclose information, if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request or direction of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us. Upon successful opening of an account welcome pack will be sent to your correspondence address./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता सेवा प्राप्त करने के लिए एचएसबीसी समूह के कार्यालयों या अन्य तृतीय पक्ष एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं, चाहे भारत में या विदेशों में स्थित हों, को मेरे/हमारे खाते के विवरण प्रदान करने और सूचना, जो गोपनीय आधार पर होगी, का आदान-प्रदान करने या साझा करने के लिए एचएसबीसी इंडिया के अधिकार को स्वीकार करते हैं और इसके अलावा किसी कानून, नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या अनुमत होने पर अथवा किसी लोक या विनियामक प्राधिकारी के अनुरोध या दिशानिर्देश पर अथवा किसी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजनार्थ आवश्यक होने पर मुझसे/हमसे किसी अतिरिक्त सहमति या प्राधिकरण के बिना किसी सूचना का प्रकटन कर सकता है। सफलतापूर्वक खाता खुल जाने के बाद आपके पत्र-व्यवहार पते पर स्वागत पैक भेजा जाएगा।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

I/We also undertake to indemnify HSBC India for any loss (including but not limited to tax liability, interest and penalty) suffered by HSBC India as a result of either relying upon this declaration or due to my/our delay/default in confirming the change, if any, of the declarations mentioned above. This indemnity shall survive the termination of relationships held by me/us with HSBC India/ मैं/हम या तो इस घोषणा पर निर्भर होने के परिणामस्वरूप या ऊपर वर्णित घोषणाओं में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, की पुष्टि करने में मेरी/हमारी ओर से विलम्ब/चूक के कारण एचएसबीसी इंडिया को हुए किसी भी नुकसान (कर देयता, ब्याज और जुर्माना सहित किंतु इन्हें तक सीमित नहीं है) के लिए एचएसबीसी इंडिया को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता/देते हैं/हैं. यह क्षतिपूर्ति एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे/हमारे द्वारा धारित संबंधों के समापन पर भी विद्यमान रहेगी.

Credit Card Declaration/ क्रेडिट कार्ड घोषणा

I/We hereby declare that the above information is complete and true and HSBC India is entitled to verify this directly or through any third party agent./ मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूरी और सत्य है और एचएसबीसी इंडिया इस जानकारी की सत्यता की जांच सीधे या किसी तीसरे पक्ष एजेंट के द्वारा करवा सकता है.

I/We further state that HSBC India may at its sole discretion sanction or decline this application for primary and/or add-on card(s). I/We confirm that the add-on applicant(s) and I/we will jointly and severally be bound by the terms and conditions of usage of the credit cards, copy of which is available on HSBC India website www.hsbc.co.in and would be made available on approval of the card./ साथ ही मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ कि एचएसबीसी इंडिया अपने विवेक पर मुख्य या एड-ऑन कार्ड(ईस) जारी करने के लिए इस आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है. मैं/हम स्वीकृत करता/करती हूँ कि एड-ऑन आवेदक(को) और मैंने, संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से क्रेडिट कार्ड के उपयोग के नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो एचएसबीसी इंडिया की वेबसाइट www.hsbc.co.in पर उपलब्ध हैं और कार्ड के स्वीकृत होने पर मुझे उपलब्ध कराए जाएंगे.

I/We authorise HSBC India to debit my/our credit card account for any fees, charges, interest, etc. I/We irrevocably confirm that all dues with respect to the HSBC Credit Card utilised for services availed of and goods purchased from eligible service establishments/merchants, by me/us and any add-on applicant(s), will be payable by me/us and I/we guarantee the payment towards the same in my capacity as the principal Cardholder. I/We undertake and declare that usage of the credit card by me/us and any add-on Cardholder(s) will be strictly in accordance with the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) and the applicable rules, regulations, notifications, directions or orders made thereunder and I/we confirm that I/we have (on behalf of HSBC India) obtained undertaking(s) from the add-on applicant(s) to this effect. In the event of failure by me or any add-on applicant(s) to comply with the provisions of FEMA, as aforesaid, I/we and such add-on applicant(s) will be liable for action under FEMA./ मैं/हम अपने क्रेडिट कार्ड खाते पर किसी प्रकार की फीस, शुल्क, ब्याज इत्यादि की रकम काटने के लिए एचएसबीसी इंडिया को अधिकृत करता/करती हूँ. मैं/हम बिना शर्त यह वादा करता/करती हूँ कि एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर, ली गई वैध सेवाओं या सेवा प्रतिष्ठान/दुकान से, मेरे/एड-ऑन आवेदक(को) द्वारा खरीदे गए सामान का भुगतान का मेरे द्वारा किया जाएगा तथा मैं मुख्य कार्डधारक होने के नाते, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भुगतान का वचन देता/देती हूँ. मैं/हम यह वादा तथा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे/एड-ऑन आवेदक(को) द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (फेमा) के पूरी तरह नियमों अनुसार व इस संबंध में बनाए गए नियमों, नियामकों, सूचनाओं, निर्देशों या आदेश अनुसार किया जाएगा व इस संबंध में मैंने एड-ऑन आवेदक(को) से उचित स्वीकारोक्ति ले ली है. यदि मेरे/एड-ऑन आवेदक(को) द्वारा फेमा के उपरोक्त नियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो मुझ/एड-ऑन आवेदक(को) पर फेमा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है.

I/We also confirm that as on the date of this application, there are no litigations, initiated by other banks/financial institutions, being faced by me/us (if not, please strike-off and provide a separate list of initiated/pending litigations), in addition to any general right to lien/set-off or other right conferred by law or under any other agreement. I/We authorise HSBC India to, without notice, combine or consolidate the outstanding balance on the card account with any other account(s) which I/we maintain with HSBC India, and set-off or transfer any money outstanding to the credit of such other account(s), in or towards the satisfaction of my/our liability to HSBC India under this agreement./ इसी के साथ मैं/हम यह स्वीकारता हूँ/हैं कि इस आवेदन की तारीख तक, किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध न तो किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है (यदि नहीं तो काट दें तथा दायर किए गए/लंबित पड़े कानूनी विवादों की अलग से सूची दें) इसी के साथ, उनकी भी सूची दें, जो किसी कानून द्वारा प्रदत्त या कानून के तहत दिए गए सामान्य अधिकार में लीएन/सेट-ऑफ या अन्य अधिकार में हो. साथ ही, मैं एचएसबीसी इंडिया को अधिकृत करता/करती हूँ कि एचएसबीसी इंडिया, बिना सूचना के, एचएसबीसी इंडिया के मेरे अन्य कार्ड खाता(ते) में जमा मेरी रकम को एक साथ मिला या जोड़ सकते हैं तथा इस अनुबंध के अंतर्गत इस रकम को एचएसबीसी इंडिया द्वारा मेरी देनदारी निपटाने के लिए, किसी खाते की उधारी के सामने, किसी रकम के शेष के सामने जमा/ट्रांसफर कर सकते हैं.

I/We acknowledge that HSBC India may assign any activities to any service provider, whether located in India or overseas and whether an HSBC Group entity or a third party, at its sole discretion, in accordance with the applicable guidelines of the Reserve Bank of India (RBI). We also acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account/application to such service providers for the purpose of availing outsourced services of any nature by HSBC India, without any specific consent or authorisation from me/us./ मैं/हम अभिस्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार स्वविवेक से किसी भी सेवा प्रदाता, चाहे भारत में या विदेशों में स्थित हो, और चाहे एचएसबीसी समूह की कंपनी हो या अन्य पक्ष हो, को कोई भी कार्यकलाप सौंप सकता है. मैं एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी भी प्रकार की आउटसोर्स सेवाएं प्राप्त करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं को मेरी/हमारी किसी विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना मेरे/हमारे खाते/आवेदन के ब्यौरे प्रदान करने के एचएसबीसी इंडिया के अधिकार को भी अभिस्वीकार करते हैं.

I/We further acknowledge that HSBC India or such service providers, whether located in India or overseas, may disclose such information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud. I/We acknowledge that the existence of this account and details thereof (including details of credit card transactions and any defaults committed by me/us), will be recorded with credit reference agencies and such information (including processed information) may be shared with banks/financial institutions and other credit grantors for the purposes of assessing further applications for credit by you and/or members of your household, and for occasional debt tracing and fraud prevention./ मैं/हम यह भी अभिस्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया या ऐसे सेवा प्रदाता, चाहे भारत में या विदेशों में स्थित हो, किसी कानून, नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या अनुमत होने पर अथवा किसी लोक या विनियामक प्राधिकारी के अनुरोध पर अथवा अथवा किसी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित होने पर ऐसी सूचना को प्रकट कर सकते हैं. मैं/हम अभिस्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि इस खाते की विद्यमानता और उसके ब्यौरे (क्रेडिट कार्ड के लेनदेनों और मेरे/हमारे द्वारा की गई चूकों के ब्यौरे सहित) क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों के पास दर्ज किए जाएंगे और ऐसी सूचना (संसाधित सूचना सहित) को आपके द्वारा या आपके घर के किसी सदस्य द्वारा दिए गए अन्य ऋण आवेदनों के मूल्यांकन करने और अनियत अनियत ऋण का पता लगाने और धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजनार्थ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋण गारंटीकर्ताओं के साथ साझा की जा सकती है.

I/We accordingly, authorise HSBC India to share information relating to my/our credit card account/application, including information relating to any add-on application(s) with any statutory/regulatory authorities, as appropriate or HSBC group entities. I/We understand that as a pre-condition, relating to grant of loans/advances/other non-fund-based credit facilities to me, HSBC India requires consent for the disclosure by HSBC India, of information and data relating to me/add-on applicant(s), of the credit facility availed of/to be availed of by me/us, obligations assumed/to be assumed by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me in discharge thereof./ मैं/हम तदनुसार एचएसबीसी इंडिया को किसी अतिरिक्त आवेदन(नों) से संबंधित सूचना सहित मेरे/हमारे क्रेडिट कार्ड खाते / आवेदन से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकारी, जो भी उपयुक्त हो, या एचएसबीसी समूह की संस्थाओं के साथ साझा करने के लिए प्राधिकृत करता/करते हूँ/हैं. मैं समझता हूँ कि यह लोन/एडवांसेस/अन्य नॉन-फंड बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटीज को स्वीकार करने के संबंध में, बतौर पूर्वशर्त, मुझे दी गई/दी जाने वाली क्रेडिट फेसिलिटी, इसे चुकाने के लिए मानी गई/मानी जाने वाली मेरी जिम्मेदारी, तथा इस पर मेरे द्वारा की गई अक्षमताओं के संबंध में मुझ/एड-ऑन कार्डधारक(को) से जुड़ी जानकारी/आंकड़ों को एचएसबीसी द्वारा बताने के लिए एचएसबीसी इंडिया को मेरी/एड-ऑन कार्डधारक(को) की सम्मति की आवश्यकता होगी.

1. Accordingly, I/we hereby, agree and give consent and confirm that I/we have obtained consent from the add-on cardholder(s) for the disclosure by HSBC India of all or any such; (a) information and data relating to me/add-on cardholder(s), (b) the information or data relating to any credit facility availed of/ to be availed of by me and (c) default, if any, committed by me/us in discharge of my/our such obligation, as HSBC India may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL) and any other agency authorised in this behalf by RBI./ 1. तदनुसार, मैं/हम अपनी सम्मति देता/देती हूँ तथा पुष्टि करता हूँ कि इस संबंध में मैंने एड-ऑन कार्डधारक(को) से आवश्यक सम्मति ले ली है कि (अ) मुझसे या एड-ऑन कार्डधारक(को) से जुड़ी सभी जानकारी व आंकड़ों को (ब) दी गई/जाने वाली सुविधा से जुड़ी जानकारी या आंकड़ों तथा (स) जिम्मेदारी पूरी करने में हुई अक्षमताएं, यदि हुई हों तो, को क्रेडिट ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत की हुई किसी एजेंसी को एचएसबीसी, जिसे योग्य तथा उचित समझें, दे सकते हैं.

2. I/We undertake on my/our behalf and on behalf of the add-on cardholder(s) that (a) the Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL) and any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by HSBC India; and (b) the Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL) and any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf./ 2. मैं/हम अपने और अपने एड-ऑन कार्डधारक(को) की ओर से वादा करता हूँ कि (अ) एचएसबीसी इंडिया द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी और आंकड़ों या उत्पादों को जिसे क्रेडिट ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और किसी अन्य अधिकृत एजेंसी प्रोसेस कर सके और (ब) क्रेडिट ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और किसी अन्य अधिकृत एजेंसी को, उनके द्वारा प्रोसेस की हुई जानकारी और आंकड़ों या उत्पादों को कंसीडरेशन के लिए, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित बैंक/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट ग्रांटर्स को दे सकें.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

3. I/We expressly authorise HSBC India to decrease the credit limit on my/our credit card(s), based on its credit assessment, without prior notice to me/us./ 3. मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को लिखित रूप से अधिकृत करता/करती हूँ कि मुझे सूचना दिए बिना, क्रेडिट आंकलन के आधार पर, मेरे क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट लिमिट को बढ़ा या घटा सकते हैं।
4. I/We hereby state that for primary card applications, my/our preference towards a particular card type (Premier/Platinum/Gold) is in no way binding on HSBC India. HSBC India may at its sole discretion sanction a Premier Credit Card or Platinum Credit Card or Gold Credit Card or decline this application and HSBC India's decision shall be final and binding upon me/us./ 4. मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को प्राथमिकता किसी भी प्रकार से एचएसबीसी इंडिया पर बंधनकारी नहीं है। एचएसबीसी इंडिया अपने पूरे विवेक से, चाहे तो प्रीमियर क्रेडिट कार्ड या प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड या गोल्ड क्रेडिट कार्ड देना स्वीकार कर सकते हैं या इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं तथा इस संबंध में एचएसबीसी इंडिया का निर्णय अंतिम होगा और मुझ/हम पर बंधनकारी होगा।
5. I/We hereby declare that I/we am not a near relation to any senior officer of HSBC India or any directors of any HSBC Group companies If yes please provide details - Relationship _____, Director/ Employee name _____./ 5. मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी इंडिया के किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी भी एचएसबीसी समूह की कंपनियों के निदेशक के निकट संबंध में नहीं हूँ/हैं, यदि हां तो कृपया विवरण दें - संबंध _____, निदेशक/ कर्मचारी का नाम _____.
6. I/We hereby declare that all the decisions of HSBC India with respect to issuance of a credit card to me/the add-on applicant(s) shall be binding on me/us and neither me/us nor any person claiming through me/us shall raise any dispute in this regard./ 6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे मुख्य कार्ड एड-ऑन आवेदक(कों) के जारी करने के संबंध में एचएसबीसी इंडिया के सभी निर्णय मुझ पर बंधनकारी होंगे तथा मैं या मेरे लिए कोई और इस संबंध में किसी प्रकार का दावा करेगा।
7. I/We are aware that to be eligible for issuance of an HSBC Premier Mastercard® Credit Card, we need to be an HSBC Premier customer in India. I/We understand that I/we need to maintain the aforementioned Total Relationship Balance (TRB) criteria to qualify for HSBC Premier in India./ 7. मैं/हम यह जानते हैं कि एचएसबीसी प्रीमियर मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने की पात्रता में, मुझे/हमें भारत में एचएसबीसी प्रीमियर कस्टमर होना पड़ेगा। मैं/हम यह समझते हैं कि भारत में एचएसबीसी प्रीमियर मान्य होने के लिए मुझे/हमें उपरोक्त टोटल रिलेशनशिप बैलेंस (टीआरबी) पात्रता बनाए रखने की जरूरत है।
8. I/We consent and authorise HSBC India to generate subsequently an additional report through CIBIL or authorised agency/bureau to process my credit card application, in the event the necessary documentation and processes are not completed as per HSBC's policies./ 8. मैं/हम मानता/ती/ते हूँ/हैं तथा एचएसबीसी को अधिकृत करता/ती/ते हूँ/हैं कि वे इसके बाद सीआईबीआईएल या किसी अधिकृत एजेंसी/ब्यूरो द्वारा मेरी क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन को प्रोसेस करने के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट बनाएं, एचएसबीसी की नीति अनुसार आवश्यक दस्तावेज व प्रोसेस पूरे न होने पर।
9. I confirm that, in the event of change in address due to relocation or any other reason, I would intimate the new address to HSBC India within 2 weeks of such a change./ 9. मैं पुष्टि करता हूँ कि यदि पुनः स्थापना से या किसी और कारण से मेरे पते में बदलाव होता है तो मैं एचएसबीसी इंडिया को 2 सप्ताहों के भीतर अपना नया पता दूंगा।
10. I understand that the documents and the application form submitted will be treated as a property of HSBC India and will not be returned./ मैं यह भी मानता/ती हूँ कि जमा किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र एचएसबीसी की संपत्ति माने जाएंगे व लौटाए नहीं जाएंगे।
11. I hereby confirm to receive all service communications from HSBC India on an ongoing basis through e-mails sent to the e-mail IDs registered by me/us with HSBC India. The communication may include account related information, certificates, bank notices and account statements./ 11. मैं एचएसबीसी इंडिया के पास मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे गए ई-मेल के माध्यम से सभी सेवा संप्रेषण लगातार आधार पर प्राप्त करने की पुष्टि करता हूँ। इस संप्रेषण में खाता संबंधी जानकारी, प्रमाण पत्र, बैंक नोटिस और खाता विवरण शामिल हो सकते हैं।

I/We hereby confirm to have received, read and understood the terms and conditions pertaining to credit card, provided to me/us vide a separate booklet./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को 2 सप्ताहों के भीतर अपना नया पता दूंगा।

I/We understand and acknowledge that: / मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

- HSBC India does not provide any tax advice and service to its customers./ 1. एचएसबीसी इंडिया अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कर-सलाह नहीं देते हैं।
- I/We understand it is my/our responsibility to comply with tax laws and accordingly I/we would comply with the worldwide tax reporting and filing obligation as applicable./ 2. मैं/हम यह मानता/मानते हूँ/हैं कि कर-कानून का पालन करने और तदनुसार आय-कर विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी है। मैं/हम वर्ल्डवाइड टैक्स रिपोर्टिंग का पालन करूंगा/करेंगे तथा तदनुसार लागू एवं प्रचलित नियमों के अनुसार विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा/उठाऊंगे।
- I/We am/are obliged to provide any information requested by HSBC India, that is required by law./ 3. मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को, कानून द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
- I/We understand that where a referral by HSBC India is made to an external organisation for specific tax advice for me/us, the contract for such tax advice is between me/us and the third party, and any advice provided is the responsibility of such third party, and not HSBC India./ 4. मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी बाह्य संस्था से मेरी/हमारी विशिष्ट कर-सलाह के बारे में जानकारी मांगने पर, वह अनुबंध मेरे/हमारे तथा तृतीय पक्ष के बीच होगा, तथा ऐसी किसी भी प्रकार की सलाह तृतीय पक्ष की होगी, न कि एचएसबीसी इंडिया की।

Photographs
फोटोग्राफ

1

2

3

Customer Signatures
ग्राहक के हस्ताक्षर

1st applicant पहला आवेदक

2nd applicant दूसरा आवेदक

3rd applicant तीसरा आवेदक

Name/ नाम

--

--

--

Note: If you are not the account holder and signing under a guardianship order (for court appointed guardians) please attach a certified copy of the guardianship order.

नोट: यदि आप खाताधारक नहीं हैं और संरक्षकत्व आदेश (न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक) के तहत हस्ताक्षर कर रहे हैं तो संरक्षकत्व आदेश की एक प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

Capacity:

--

--

--

हैसियत:

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Date:/ दिनांक:

Optional Services/ वैकल्पिक सेवाएं

- Marketing Offers/ मार्केटिंग ऑफर/ International Services/Help us to know you better./ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं/ आपको बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी सहायता करें
- Wealth Management Service/ संपत्ति प्रबंधन सेवा

Office Use/ कार्यालय उपयोग

I certify that the signature(s) and photograph(s) of the accountholders shown in this form are genuine and correct./ मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस फॉर्म में दर्शाए गए खाताधारकों के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ असली और सही हैं.

Signature and photograph checked by:/ हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जांचकर्ता:

Employee name/ कर्मचारी का नाम _____

Employee number/ कर्मचारी संख्या

Signed in my presence (by Bank staff)
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया (बैंक स्टाफ द्वारा)

For Credit Card only/ केवल क्रेडिट कार्ड के लिए

HSBC Account number/ एचएसबीसी खाता संख्या Marketing code/ मार्केटिंग कोड

SE code/ एसई कोड Channel code / चैनल कोड

Application serial number / आवेदन क्रम संख्या Promo code/ प्रोमो कोड

Information/ जानकारी

The selected definitions have been provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the Income Tax Rules, 1961 and OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. इस फॉर्म को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए चुनिंदा परिभाषाएँ की गई हैं. अधिक विवरण आयकर नियम, 1961 और वित्तीय लेखा सूचना (सीआरएस) के स्वचालित आदान-प्रदान हेतु ओईसीडी सामान्य रिपोर्टिंग मानक, सीआरएस से संबंधित कमेंट्री और देशी मार्गदर्शन के तहत प्राप्त किए जा सकते हैं. इसे निम्नलिखित लिंक www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ पर पाया जा सकता है.

If you have any questions please contact your tax adviser or domestic tax authority. Self-Certification of documents is mandatory. The generation of KYC number/ identifier will be performed by HSBC India subject to availability of necessary technology./ यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने कर सलाहकार या देशी कर प्राधिकरण से संपर्क करें. दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन अनिवार्य है. आवश्यक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के अधीन एचएसबीसी इंडिया द्वारा केवाईसी नंबर/पहचानकर्ता जनरेट किया जाएगा.

Every citizen is entitled to open an account in any bank anywhere in India. For this, you need any one of the following six documents: Aadhaar Card, MNREGA Card, Voter's identity card, Driving Licence, PAN card or Passport./ प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी किसी भी बैंक में खाता खोलने का हकदार है. इसके लिए, आपको निम्नलिखित छह दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता है: आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट.

Additional proof of local address is not required if permanent address is there recorded in any of the above six documents./ यदि उपरोक्त छह दस्तावेजों में से किसी में भी स्थायी पता दर्ज है, तो स्थानीय पते के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है.

Even if a person does not have any of these above documents, she/he can still open an account with the help of some additional documents under the simplified measures or open a small account which will have certain limitations with regard to withdrawal, credit and balance with a photograph. The 'Code of Bank's Commitment to Customers' was released by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in January 2018. HSBC India is a member of the BCSBI.

To obtain your copy of the code, please visit www.hsbc.co.in or one of our branches./ यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो भी वह सरलीकृत उपायों के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की सहायता से अब भी खाता खोल सकता है या फोटोग्राफ से एक छोटा खाता खोल सकता है, जिसमें निकासी, जमा और शेष राशि के संबंध में कुछ सीमाएं होंगी. भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) द्वारा जनवरी 2018 में 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' जारी किया गया. एचएसबीसी इंडिया बीसीएसबीआई का एक सदस्य है. संहिता की अपनी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए, कृपया www.hsbc.co.in देखें या हमारी किसी शाखा में जाएं.

HSBC PhoneBanking service is provided only to customers, who have opted for signing instruction 'Singly'/'Either or Survivor'. RBI has recently updated circular No. RBI/FED/2015-16/1 FED Master Direction No.4/2015-16 i.e. Master Direction on Compounding of Contraventions under FEMA. As per the circular, any person who contravenes any provision of FEMA, 1999, or any rule, regulation, notification, direction or order issued in exercise of the powers under this Act, or contravenes any condition subject to which an authorization is issued by the Reserve Bank, he shall, upon adjudication, be liable to a penalty upto the amount as prescribed under the law. For more details you may refer following link - www.hsbc.co.in/ एचएसबीसी फोनबैंकिंग सेवा केवल उन्हीं ग्राहकों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने 'एकल रूप से' /अथवा दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के निर्देश पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना है. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में परिपत्र संख्या आरबीआई / एफईडी / 2015-16 /1 एफईडी मास्टर दिशानिर्देश संख्या 4/ 2015-16 यानी फेमा के तहत उल्लंघनों के प्रशमन पर मास्टर दिशानिर्देश को अद्यतन किया है. परिपत्र के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो फेमा, 1999 के किसी भी प्रावधान या इस अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किए गए किसी नियम, विनियमन, अधिसूचना, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करता है, या किसी शर्त का उल्लंघन करता है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, वह, न्यायनिर्णय पर, कानून के तहत निर्धारित राशि तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निम्न लिंक - www.hsbc.co.in देखें.

Welcome pack: An e-version of the HSBC Premier welcome pack will be sent to your e-mail ID registered with HSBC India. If your e-mail ID is not registered with HSBC India, you will receive a paper version of the same at the correspondence address registered with HSBC India. In case you wish to receive paper version of HSBC Premier welcome pack (irrespective of registering your e-mail ID) you can also place a request for the same through HSBC Premier PhoneBanking./ स्वागत पैक: एचएसबीसी प्रीमियर स्वागत पैक का एक ई-संस्करण एचएसबीसी इंडिया के पास पंजीकृत आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा. यदि आपकी ई-मेल आईडी एचएसबीसी इंडिया एचएसबीसी इंडिया

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

के पास पंजीकृत नहीं है, तो आपको एचएसबीसी इंडिया के पास पंजीकृत पत्राचार पते पर उसी का एक पेपर संस्करण प्राप्त होगा। यदि आप एचएसबीसी प्रीमियर स्वागत पैक (अपना ई-मेल आईडी दर्ज करने के बावजूद) का पेपर संस्करण प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एचएसबीसी प्रीमियर फोनबैंकिंग के माध्यम से भी इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

Key things you should know/ मुख्य बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए

- HSBC Premier provides personal support for your personal economy. Your personal economy represents the health of your whole financial life/ एचएसबीसी प्रीमियर आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था आपके संपूर्ण वित्तीय जीवन के स्वास्थ्य का निरूपण करती है।
- The HSBC Premier offering includes:/ एचएसबीसी प्रीमियर की पेशकश में शामिल हैं:
 - A trained and accredited HSBC Relationship Manager to assist you with banking and wealthmanagement needs/ बैंकिंग और धन प्रबंधन की जरूरतों में आपकी सहायता के लिए एक प्रशिक्षित और अधिकृत एचएसबीसी संपर्क प्रबंधक
 - A complimentary HSBC Premier Mastercard® Credit Card with offers such as airport lounge access, discounts at select restaurants, access to select golf courses, cashback on movie tickets, fuel surcharge waiver, shopping offers, etc./ एक मानार्थ एचएसबीसी प्रीमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड जिसके साथ एयरपोर्ट लाउंज के उपयोग, चुनिंदा रेस्तरां में छूट, गोल्फ कोर्स का उपयोग, मूवी टिकट पर कैशबैक, ईंधन अधिभार छूट, खरीदारी की पेशकश आदि सुविधाएं हैं।
 - Withdrawal limits of up to ₹250,000 per day and unlimited free transactions at any ATM (including non-HSBC ATMs) in India on the HSBC Premier Platinum Debit Card/ एचएसबीसी प्रीमियर प्लेटिनम डेबिट कार्ड से प्रति दिन ₹250,000 रुपये तक की आहरण सीमा और भारत में किसी भी एटीएम (गैर-एचएसबीसी एटीएम सहित) असीमित मुफ्त लेनदेन।
 - Global recognition and support at HSBC branches across the world, including emergency encashment of USD 2,000 for you and your family/ दुनिया भर में एचएसबीसी शाखाओं में वैश्विक मान्यता और समर्थन, जिसमें आपके और आपके परिवार के लिए 2,000 यूएस डॉलर का आपातकालीन नकदीकरण शामिल है।
- HSBC Premier in India is offered to you based on the below criteria:/ भारत में एचएसबीसी प्रीमियर आपको निम्न मानदंडों के आधार पर ऑफर किया जाता है:
 - **HSBC Premier Total Relationship Balance (TRB) criterion:** Maintain a quarterly Total Relationship Balance (TRB) of ₹4,000,000 (Rupees forty lakh only); OR/ एचएसबीसी प्रीमियर टोटल रिलेशनशिप बैलेंस (टीआरबी) मानदंड: ₹4,000,000 रुपये (केवल चालीस लाख रुपये) का त्रैमासिक कुल संबंध शेष (टीआरबी) बनाए रखें; या
 - **HSBC Premier mortgage criterion:** Have a mortgage relationship with disbursal of ₹11,500,000 (Rupees one crore fifteen lakh only) or more, with HSBC India; OR/ एचएसबीसी प्रीमियर बंधक मानदंड: एचएसबीसी इंडिया के साथ ₹11,500,000 रुपये (केवल एक करोड़ पंद्रह लाख रुपये) या उससे अधिक के ऋण वितरण के साथ बंधक संबंध; या
 - **HSBC Premier Corporate Employee Programme (CEP) criterion:** Hold a corporate salary account under the HSBC Corporate Employee Programme (CEP) in India with a net monthly salary credit of ₹300,000 (Rupees three lakh only) or more into the account/ एचएसबीसी प्रीमियर कॉर्पोरेट कर्मचारी कार्यक्रम (सीईपी) मानदंड: खाते में 300,000 रुपये (केवल तीन लाख रुपये) या अधिक राशि के निवल मासिक वेतन जमा के साथ भारत में एचएसबीसी कॉर्पोरेट कर्मचारी कार्यक्रम (सीईपी) के तहत एक कॉर्पोरेट वेतन खाता रखें।
- HSBC Premier customers who do not meet the Mortgage or CEP criteria will need to maintain the applicable Premier TRB criteria./ एचएसबीसी प्रीमियर ग्राहक जो बंधक या सीईपी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें लागू प्रीमियर टीआरबी मानदंडों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- If the TRB criteria is not met for a particular quarter, we will levy a quarterly service charge of 0.2% on the shortfall in the TRB, upto a maximum of ₹2,000 (plus applicable taxes\$\$. When you do not meet the minimum TRB for a particular quarter, we will notify you in the following quarter and request you to build the TRB by the quarter/ यदि टीआरबी मानदंड किसी विशेष तिमाही के लिए पूरा नहीं किया गया है, तो हम टीआरबी में हुई कमी पर 0.2% की त्रैमासिक सेवा शुल्क, अधिकतम ₹2,000 (और लागू कर\$\$) तक लगाएंगे। जब आप किसी विशेष तिमाही के लिए न्यूनतम टीआरबी को पूरा नहीं करते हैं, तो हम आपको आगामी तिमाही में सूचित करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप तिमाही तक टीआरबी का निर्माण करें।
 - If you build the requisite TRB in the next quarter, we will not levy the service charges./ यदि आप अगली तिमाही में अपेक्षित टीआरबी का निर्माण करते हैं, तो हम सेवा शुल्क नहीं लगाएंगे।
 - However, if you do not build the TRB for two consecutive quarters, we will levy the service charge on the lower of the TRB shortfall between these two quarters/ हालांकि, यदि आप लगातार दो तिमाहियों के लिए टीआरबी का निर्माण नहीं करते हैं, तो हम इन दो तिमाहियों के बीच टीआरबी की कमी के आधार पर सेवा शुल्क लगाएंगे।

(Note that the above mentioned service charges will not be applicable for Premier customers who hold a corporate salary account with HSBC)/ (नोट करें कि उपर्युक्त सेवा शुल्क उन प्रीमियर ग्राहकों के लिए लागू नहीं होगा जो एचएसबीसी के साथ कॉर्पोरेट वेतन खाता रखते हैं)

- If we observe that the eligibility criteria is not maintained consistently, HSBC India may be constrained to reclassify your HSBC Premier account to an alternate offering. You will receive further communication and due notice prior to any such account reclassification/ यदि हम देखते हैं कि पात्रता मानदंड लगातार बनाए नहीं रखा गया है, तो बैंक आपके एचएसबीसी प्रीमियर खाते को वैकल्पिक ऑफरिंग के लिए पुनर्वर्गीकृत करने के लिए बाध्य हो सकता है। इस तरह के किसी भी खाते के पुनर्वर्गीकरण से पहले आपको पत्र और उचित सूचना दी जाएगी।
- For detailed information on HSBC Premier, eligibility criteria, service charges as well as applicable terms and conditions, please visit www.hsbcpremier.co.in/ एचएसबीसी प्रीमियर, पात्रता मानदंड, सेवा शुल्क के साथ-साथ लागू नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया www.hsbcpremier.co.in देखें।
- HSBC will notify you of any changes in the terms and conditions of this offering with prior notice of one month/ एचएसबीसी आपको एक महीने की पूर्व सूचना के साथ इस पेशकश (ऑफरिंग) के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेगा।

\$\$\$Please note that basis Goods and Services Tax (GST) regulations and notified GST rates, Central GST, State/Union Territory GST, or Inter-State GST, as applicable, and Cess as applicable would apply on our fees and charges./ \$\$\$कृपया ध्यान दें कि हमारी फीस और प्रभारों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) विनियम और अधिसूचित जीएसटी दरें, केंद्रीय जीएसटी, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, या अंतर-राज्य जीएसटी, जैसा कि लागू हो, और यथा लागू उपकर लागू होंगे।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Credit Card - Key Things You Should Know/ क्रेडिट कार्ड - मुख्य बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए

- HSBC Premier Mastercard® Credit Card (Card) is globally valid and have been designed to complement your lifestyle. Our card products extend a host of offers ranging from travel privileges to dining, shopping and more/ एचएसबीसी प्रिमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड (कार्ड) दुनियाभर में चलता है और इसे आपकी जीवन शैली में पूरक बनने के लिए तैयार किया गया है। इन एचएसबीसी एडवांस प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड्स को आपके रहन-सहन के अनुरूप बनाया गया है। हमारे प्रॉडक्ट्स वे डेरों पेशकश देते हैं जिसमें डाइनिंग, शॉपिंग तथा बहुत कुछ है
- This Card is meant for usage in India only, unless you have specifically requested for international usage at the time of application of your credit card. To know more about the validity of your Card or for details on international usage, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) or call PhoneBanking/ यह कार्ड भारत में ही उपयोग के लिए है, यदि क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपने विशेष रूप से यह अनुरोध न किया हो कि आपको अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए चाहिए। अपने कार्ड की वैधता जानने के लिए या अंतरराष्ट्रीय उपयोग पर अधिक जानकारी के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को देखें या फोनबैंकिंग में कॉल करें।
- Please visit the credit cards section on our website www.hsbcpremier.co.in for more details on:/ अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.hsbcpremier.co.in के क्रेडिट कार्ड खंड को देखें:
 - Free credit up to 52 days on purchases under the applicable terms and conditions/ लागू नियम और शर्तों के तहत खरीदारी पर 52 दिनों तक की मुफ्त उधारी
 - Rewards programme on your HSBC Credit Card/ आपके एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड पर रिवाइस प्रोग्राम
 - Lost card liability and how to reduce the chances of your credit card being subject to misuse/ खोए कार्ड पर देयता की जिम्मेदारी और गैर- उपयोग को कैसे कम किया जाए
 - Transaction fee and applicable interest for cash advances against your credit card, finance charge (interest) in case the credit card outstanding is not repaid in full by the due date/ आपके क्रेडिट कार्ड पर कैश एडवांसेस पर ट्रांजेक्शन फी और लागू ब्याज, वित्त शुल्क (ब्याज) यदि क्रेडिट कार्ड की बकाया को देय तारीख तक चुकाया न जाए
- You need to pay the minimum payment due (you may choose to pay higher) by the payment due date specified on your monthly card statement to avoid transactions getting declined and levy of late payment fee. Making only the minimum payment every month would result in the repayment stretching till the entire outstanding is settled. For example, if payment due is ₹5,000 and you do not make any new transactions on your credit card, minimum repayment could stretch up to 6 years based on the current tariff structure on your card/ आपको पेमेंट की देय तारीख तक अपने मासिक कार्ड स्टेटमेंट पर लिखे मिनिमम पेमेंट ड्यू (आप चाहें तो ज्यादा भी भर सकते हैं) चुकाने होंगे ताकि आगे व्यवहार करने से मना न हो तथा विलंब से भुगतान करने पर लगने वाले दंड से बचा जा सके। हर माह सिर्फ न्यूनतम भुगतान करने से बकाया राशि के भुगतान तक पुनर्भुगतान खिंच जाता है। उदाहरण के लिए, यदि ₹5,000 का भुगतान शेष हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई नयी खरीदारी नहीं करते हैं तो मौजूदा दर ढांचे पर आधारित आपके कार्ड पर न्यूनतम भुगतान को 9 वर्षों तक खींचा जा सकता है।
- You need to pay at least your minimum due amount by the due date. Non-payment would impact:/ देय तारीख तक आपको कम से कम न्यूनतम देय राशि चुकानी होगी। भुगतान न करने का असर:
 - Your credit rating (reporting to Credit Bureau - CIBIL)/ आपकी क्रेडिट रेटिंग (क्रेडिट ब्यूरो सीआईबीआईएल को रिपोर्टिंग)
 - Other credit facilities availed from HSBC/ एचएसबीसी से ली गई अन्य क्रेडिट फेसिलिटीज
 - In addition to the above, HSBC India can cancel the credit limit and initiate recovery proceedings to recover the dues/ उपरोक्त के अलावा, बैंक चाहे तो क्रेडिट लिमिट कैंसल कर, देय राशि की वसूली शुरू कर सकता है।
- Please visit 'HSBC Premier - Privileges and Rewards' section on our website www.hsbcpremier.co.in for detailed terms and conditions applicable on your credit card/ आपके क्रेडिट कार्ड पर लागू नियमों और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.hsbcpremier.co.in पर 'एचएसबीसी प्रिमियर - प्रिविलेज और रिवार्ड' विभाग देखें।
- HSBC will notify you of any changes in the terms and conditions of this product with prior notice of one month/ इस उत्पाद के नियम और शर्तों में बदलाव होने पर बैंक एक महीने की पूर्व सूचना देगी।
- The HSBC Premier Mastercard® Credit Card is offered based on a HSBC Premier relationship in India. Post appropriate notice, Bank has the right to re-classify/ discontinue the HSBC Premier Mastercard® Credit Card in the event of non-maintenance of the HSBC Premier relationship criteria or requirement based on which the HSBC Premier Mastercard® Credit Card was issued/ एचएसबीसी प्रिमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड भारत में एचएसबीसी प्रिमियर संबंध के आधार पर ऑफर किया जाता है। एचएसबीसी प्रिमियर संबंध से जुड़े मानदंड या जिस अपेक्षा के आधार पर एचएसबीसी प्रिमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था, को बनाये न रखने की स्थिति में बैंक समुचित नोटिस देकर एचएसबीसी प्रिमियर मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड को पुनःवर्गीकृत करने/समाप्त करने का अधिकार है।

Additional Details/ अतिरिक्त विवरण

Associated person(s)/ सम्बद्ध व्यक्ति

Same as/ के समान Joint accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Joint accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 If different/ यदि अलग हो तो

KYC number/ केवाईसी नंबर (Number would be given by Central KYC registry) (If available)/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (यदि उपलब्ध हो)

Associated person(s) details:/ सम्बद्ध व्यक्ति विवरण: Individual/ Individual Entity/ Entity Existing Customer/ Existing Customer Yes/ हॉ No/ नहीं

Customer ID/ ग्राहक आईडी Account number/ खाता नंबर

Relationship with applicant/ Relationship with applicant _____

Type of arrangement in place/ Type of arrangement in place Legal/ Legal Written/ Written Informal/ Informal

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं

Any other/ कोई अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (if applicable)/ (यदि लागू है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Date of birth/ जन्म तिथि Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender/ तीसरा लिंग

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

PAN details:/ पैन के ब्यौरे: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

Permanent Account Number/ परमानेंट अकाउन्ट नंबर (PAN/ पैन) Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Driving licence/ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स
 Others/अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स
 Others/अन्य# _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

If "Yes", यदि 'हाँ', please state Aadhaar number / तो आधार नंबर उल्लिखित करें

#For information on additional documents acceptable as identity/address proof please get in touch with the nearest HSBC branch in India or your Relationship Manager or call the HSBC India Contact Centre./ #पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य अतिरिक्त दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए कृपया भारत में नजदीकी एचएसबीसी शाखा या अपने संबंध प्रबंधक से संपर्क करें अथवा एचएसबीसी इंडिया संपर्क केंद्र को कॉल करें.

Documents accepted as a Proof of Address should mention the address details. In case Proof of Identity does not contain Date of Birth, an additional proof for the same is required. It is mandatory to provide a self-attested copy of Passport for Non-Resident customer./ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों में पते के पूरे ब्यौरे उल्लिखित हों. यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा. अनिवासी ग्राहक के लिए पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करना अनिवार्य है.

Residential address/ आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number. (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Correspondence Address same as residential address/ पत्राचार पता वही जो आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number. (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Permanent Address same as residential address/ स्थायी पता वही जो आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर

District/ जिला

State / राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Customer Signatures

ग्राहक के हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक:

Optional Services/ वैकल्पिक सेवाएं

Marketing Offers/International Services/Help us to know you better/ मार्केटिंग ऑफर/ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं/आपको बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी सहायता करें

Marketing Offers Consent/ मार्केटिंग ऑफर्स कन्सेंट

1. Marketing offers/ मार्केटिंग ऑफर्स

- From time to time, HSBC India communicates various features/products/promotional offers which offer significant benefits (for e.g.: 50% cashback at PVR cinemas on your HSBC Premier MasterCard® Credit Card) to its customers and may use the services of third party agencies to do so. Do you wish to be informed about such benefits?/ एचएसबीसी इंडिया, अपनी खूबियों/उत्पादों/प्रमोशनल ऑफर्स, जो अपने ग्राहकों को ढेरों फायदे (उदाहरण के लिए: अपने एचएसबीसी मास्टरकार्ड® क्रेडिट कार्ड पर पीवीआर सिनेमास में 50% कैशबैक) देते हैं, के बारे में समय-समय पर बताते रहते हैं. ग्राहक इन तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. क्या आप भी इन ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं?
- I/We expressly authorise HSBC India to use information or data relating to me/us, for communicating marketing offers as outlined above No, I/we do not wish to receive offers as outlined above./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को विशेष रूप से उपरोक्त मार्केटिंग ऑफर्स बताने के लिए मेरे/हमारे से संबंधित जानकारी या आंकड़े के इस्तेमाल के लिए अधिकृत करते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो ऐसे मार्केटिंग ऑफर्स प्राप्त तो करना चाहते हैं.
- For customers who wish to receive such marketing offers, but do not wish to be communicated the same by way of telephone calls/SMSes from HSBC India, we offer a 'do-not-call' service. To register for this, please visit our website www.hsbc.co.in I/We expressly authorise HSBC India to give or make available to any member of the HSBC Group*, information or data relating to me/us, whether provided by me/us or otherwise, in connection with the offer, sale or distribution of products and services offered by such entities, in which I/we have expressed interest. I/We understand that my/our information will be protected by a strict code of secrecy and security to which all members of the HSBC Group and their staff are subject to./ लेकिन वे इन्हें एचएसबीसी द्वारा किए गए टेलीफोन कॉल/एसएमएस के माध्यम से नहीं चाहते, हम डू नॉट कॉल सेवा उपलब्ध कराते हैं. इस सेवा पर पंजीकरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hsbc.co.in पर पधारें. जो अलग शख्सियतों द्वारा दिए जाते हैं, तथा जिनमें मेरी/हमारी विशेष अभिरुचि है, ऑफर्स, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में, मुझ/हम से संबंधित जानकारी या आंकड़े, जो मेरे/हमारे द्वारा दिए गए या किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध हुए हों, दिए जाने या उपलब्ध कराने के लिए एचएसबीसी समूह* को अधिकृत करते हैं. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी/आंकड़ों को गुप्तता के कोड के तहत पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा, तथा एचएसबीसी समूह के सभी सदस्य और उनके कर्मचारी इनसे बंधे रहेंगे.

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Nomination Form (Form DA-1) for Bank Account/ नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म डीए-1) बैंक के लिए

(While the nomination facility is optional, we recommend that you avail of it.)/ (नामांकन सुविधा हालांकि ऐच्छिक है, फिर भी हमारा सुझाव है कि आप इसका लाभ लें.)

For bank's use/ केवल बैंक के प्रयोग के लिए

Account/Receipt no./ खाता/रसीद सं.

(Form DA1: Nomination under Section-45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of bank deposits)
(फॉर्म डीए-1: (बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 45 जेडए तथा बैंक डिपॉजिट्स के संबंध में बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) रूल्स, 1985, के रूल 2(1) के अंतर्गत नामांकन

I/We [enter name(s) and address(es) of accountholder(s)] Address as per bank record:

मैं/हम (खाताधारक (कों) का नाम व पता भरें) बैंक रिकॉर्ड के अनुसार पता:

Name of accountholder:

खाताधारक का नाम:

E-mail ID:

ईमेल आईडी:

Phone no.:

फोन नं.:

(For bank records update)

(बैंक रिकॉर्ड के अपडेट के लिए)

Nominate the following person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of the deposit, particulars whereof are given below, may be returned by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (enter name and address of branch/office in which deposit is held)/ निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता/करते हूँ/हैं जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में जमा की राशि, जिसके विवरण नीचे दिये गए हैं, हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
.....(उस शाखा/कार्यालय का नाम दर्ज करें जिसमें जमा रखा है) द्वारा लौटाई जाए.

Deposit/ जमा		Nominee/ नॉमिनी / नामिती				
Nature of deposit*, distinguishing no. ^s जमा का स्वरूप*, सुस्पष्ट संख्याएं ^s	Additional details, if any/ अतिरिक्त ब्यौर, यदि कोई हैं	Name/ नाम	Address/ पता	Relationship with depositor, if any/ जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई है	Age (Years)/ आयु (वर्ष)	If nominee is a minor+, date of birth/ यदि नामिती अवयस्क+ है तो, जन्म तिथि

+As the nominee is a minor on this date, I/we appoint Shri/Smt/Kum (Name and Address):

+चूंकि नामांकित व्यक्ति इस तारीख तक अवयस्क है, अतः मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पता):

Age:

आयु:

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death(s) during the minority of the nominee.
को नियुक्त करता/करती/करते हूँ/हैं. ताकि मेरी/हमारी/अवयस्क की अवयस्कता के दौरान मृत्यु होने की दशा में नामांकित व्यक्ति को डिपॉजिट की राशि दी जाए.

PRINT NOMINEE NAME on statement/passbook/fixed deposit receipt:/ स्टेटमेंट/पासबुक/फिक्सड डिपॉजिट रसीद पर नामांकित का नाम मुद्रित करें:

Yes/ हाँ No/ नहीं

Signature/Thumb impression of applicant(s)*/ Signature/Thumb impression of applicant(s)*

1st applicant

पहला आवेदक

2nd applicant

दूसरा आवेदक

3rd applicant

तीसरा आवेदक

Date:

दिनांक:

Place:

स्थान

Witness(es) (refer point 6)/ Witness(es) (refer point 6)

(1) Name:

(1) नाम:

(2) Name:

(2) नाम:

Signature:

हस्ताक्षर:

Signature:

हस्ताक्षर:

Address:

पता:

Address:

पता:

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

- * Where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor./ *जहां एक अवयस्क के नाम में जमा किया जाता है, नामांकन अवयस्क की ओर के कार्य करने के लिए विधिसंगत रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- As per the prevailing Banking Companies (Nomination) Rules, Nomination can be made only in favour of an individual and there cannot be more than one nominee on an account./ 1. लागू बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम के अनुसार, नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है और एक खाते के लिए एक से अधिक नामिती नहीं हो सकते।
 - Nomination made by the accountholder(s)/Guardians can be modified any time./ 2. खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) द्वारा किए गए नामांकन को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।
 - Request for registration/variation/cancellation of nomination should be submitted in the prescribed form (in duplicate) duly signed by the accountholder(s)/Guardians and should be submitted to any branch of the Bank in India./ 3. नामांकन के पंजीकरण/संशोधन/निरसन हेतु अनुरोध खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में (दो प्रतियों में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए और भारत में बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - If there is more than one accountholder, then the Nomination Form should be signed by all accountholder(s). A copy of the Nomination Form will be held in the Bank's records and the other copy will be dispatched to the accountholder(s)/Guardian on the address notified in the Bank's records./ 4. यदि एक से अधिक खाताधारक हैं, तो नामांकन फॉर्म सभी खाताधारकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नामांकन फॉर्म की एक प्रति बैंक के रिकॉर्ड में रखी जाएगी और दूसरी प्रति बैंक के रिकॉर्ड में अधिसूचित पते पर खाताधारक (कों)/संरक्षक को भेजी जाएगी।
 - Any registration of nomination, cancellation or change in the nomination has to be duly witnessed./ 5. नामांकन के किसी भी पंजीकरण, रद्द करने या परिवर्तन को विधिवत् साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
 - In case a thumb impression is affixed by the accountholder(s)/Guardian on the Nomination Form, two witnesses are required, one of which has to be a bank official and the other an external person (known to the customer) as per the RBI guidelines./ 6. यदि नामांकन फॉर्म पर खाताधारक(कों)/संरक्षक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दो साक्षियों की आवश्यकता होगी जिनमें से एक बैंक अधिकारी और दूसरा बाहरी व्यक्ति (ग्राहक को ज्ञात) होना चाहिए।
 - Each fixed deposit is an individual account and therefore different nominations can be given on each account. Please mention a correct fixed deposit number against each nomination./ 7. प्रत्येक सावधि जमा एक अलग खाता होता है और इसलिए प्रत्येक खाते पर अलग-अलग नामांकन दिए जा सकते हैं। कृपया प्रत्येक नामांकन के समक्ष सही सावधि जमा संख्या का उल्लेख करें।
- # State 'Current Account', 'Savings Account', 'Fixed Deposit Account' or as the case may be./ 'चालू खाता', 'बचत खाता', 'सावधि जमा खाता' या जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करें।
- § State account number or receipt number as may be applicable./ खाता संख्या या रसीद संख्या, जैसा भी लागू हो, उल्लिखित करें।

ACKNOWLEDGMENT/ प्राप्ति की रसीद

Received the nomination and registered in the Bank's books. Payment in terms of the nomination will be effected on the nominee furnishing proof of his/her claim in the prescribed form. The Bank may at its discretion accept such claim or prescribe compliance of additional formalities before effecting payment./ नामांकन प्राप्त किया और बैंक की बहियों में पंजीकृत किया। नामांकन के निबंधनों के अनुसार भुगतान नामिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। बैंक स्वविवेकानुसार ऐसे दावे को स्वीकार कर सकता है या भुगतान करने से पहले अतिरिक्त औपचारिकताओं का अनुपालन निर्धारित कर सकता है।

Branch:
शाखा:

For The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

Date:
दिनांक:

Authorised signature:
प्राधिकृत हस्ताक्षर:

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Form 60/ फॉर्म 60 (See second proviso to rule 114B)/ (नियम 114बी का दूसरा प्रावधान देखें)

Income-tax Rules, 1962 Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B/ आयकर नियम, 1962 ऐसे वैयक्तिक या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114बी में निर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है।

1.	First Name/ प्रथम नाम								
	Middle Name/ मध्यम नाम								
	Surname/ उपनाम								
2.	Date of Birth/Incorporation of declarant/ जन्म तारीख/ घोषणाकर्ता का निगमन	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
3.	Father's Name (in case of individual)/ पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)								
	First Name/ प्रथम नाम								
	Middle Name/ मध्यम नाम								
	Surname/ उपनाम								
4.	Flat/Room No./ फ्लैट/कमरा नं.	5.	Floor No./ मंजिल संख्या						
6.	Name of premises परिसर का नाम	7.	Block Name/No./ ब्लॉक का नाम/संख्या						
8.	Road/Street/Lane रोड/मार्ग/गली	9.	Area/Locality/ क्षेत्र/इलाका						
10.	Town/City/ कस्बा/शहर	11.	District/ जिला	12.	State/ राज्य				
13.	Pin code/ पिन कोड	14.	Telephone Number (with STD code) टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सह)	15.	Mobile Number मोबाइल नंबर				
16.	Amount of transaction (₹) लेनदेन की राशि (₹)								
17.	Date of transaction लेनदेन की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
18.	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction संयुक्त नामों से लेनदेन के मामले में लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या								
19.	Mode of transaction:/ लेनदेन का तरीका: <input type="checkbox"/> Cash/ नगद <input type="checkbox"/> Cheque/ चेक <input type="checkbox"/> Card/ कार्ड <input type="checkbox"/> Draft/Banker's Cheque/ ड्राफ्ट/बैंकर चेक <input type="checkbox"/> Online transfer/ ऑनलाइन अंतरण <input type="checkbox"/> Other/ अन्य								
20.	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)								
21.	If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number/ यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह तैयार नहीं हुआ है तो आवेदन की तारीख और पावती संख्या लिखें	दिन	दिन	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
22.	If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child, etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held/ यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति-पत्नी, अयवस्क बच्चे, आदि की आय सहित) भरें जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है।								
a.	Agricultural income (₹) कृषि आय (₹)								
b.	Other than agricultural income (₹) कृषि के अलावा अन्य आय (₹)								

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

23.	Details of document being produced in support of identity in Column 1 (Refer Instruction overleaf)/ कॉलम 1 में पहचान के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण (पृष्ठभाग पर अनुदेश देखें)	Document code/ दस्तावेज कोड	Document identification number/ दस्तसवेज पहचान संख्या	Name and address of the authority issuing the document/ दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
24.	Details of document being produced in support of address in Columns 4 to 13 (Refer Instruction overleaf)/ कॉलम 4 से 13 में पते के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण (पृष्ठभाग पर अनुदेश देखें)	Document code/ दस्तावेज कोड	Document identification number/ दस्तसवेज पहचान संख्या	Name and address of the authority issuing the document/ दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

Verification / सत्यापन

I, / मैं, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income-tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax./ एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो वर्णित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति-पत्नी, अयवस्क बच्चे, आदि की आय सहित) जिसकी गणना उस वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किये गये हैं, कर के लिए आदेय अधिकतम राशि से कम नहीं होगी।

Verified today, the _____ day of _____ 20_____.

आज, दिनांक _____ 20_____ को सत्यापित

Place:/ स्थान: _____

(Signature of declarant/ (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

Note / टिप्पणी:

- Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable./ 1. घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी पूरी तरह से सही, उचित और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयानी करने वाला व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग के लिए दायी होगा और अपराध सिद्ध होने पर दंड का भागी होगा।
 - in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;/ (i) जिन मामलों में कर वंचना पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी, उनमें कठोर कारावास जो कम से कम छह माह का अधिकतम सात वर्ष तक और साथ में आर्थिक दंड भी हो सकता है;
 - in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine./ (ii) अन्य मामलों में कठोर कारावास जो कमसे कम तीन माह और अधिकतम दो वर्ष और साथ में आर्थिक दंड भी हो सकता है।
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and Column 21 is duly filled./ 2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जब मद 22 बी में उल्लिखित आय की राशि उस अधिकतम सीमा से ऊपर होगी, जिस पर कर देय नहीं है, इसके लिए पैन हेतु आवेदन कर दिया गया है और कॉलम 21 भलीभांति भरा गया है।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Instruction:/ अनुदेश:

(1) Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 20 is filled):/

(1) पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किये जा सकने वाले दस्तावेज (पैन के लिए आवेदन करने और मद 20 के भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं):

Sl. No./ क्र. सं.	Nature of Document/ दस्तावेज का स्वरूप	Document Code/ दस्तावेज का कोड	Proof of Identity/ पहचान का प्रमाण	Proof of Address/ पते का प्रमाण
A/ क.	For Individuals and HUF/ व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए			
1.	Aadhaar card/ आधार कार्ड	01	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
2.	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person/ बैंक/ डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	02	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
3.	Elector's photo identity card/ मतदाता फोटो पहचान कार्ड	03	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
4.	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person/ राशन/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्ड जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	04	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
5.	Driving Licence/ ड्राइविंग लाइसेंस	05	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
6.	Passport/ पासपोर्ट	06	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
7.	Pensioner photo card/ पेंशनभोगी का फोटो कार्ड	07	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
8.	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job card/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) जॉब कार्ड	08	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
9.	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person/ जाति या निवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	09	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
10.	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per Annexure A prescribed in Form 49A/ फॉर्म 49ए में वर्णित अनुबंध ए के अनुसार सांसद/विधायक या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र	10	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
11.	Certificate from employer as per Annexure B prescribed in Form 49A/ Certificate from employer as per Annexure B prescribed in Form 49A/ फॉर्म 49ए में वर्णित अनुबंध बी के अनुसार नियोक्ता से प्रमाणपत्र	11	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
12.	Kisan passbook bearing photo/ किसान पासबुक जिसमें फोटो लगा हो	12	Yes/ हाँ	No/ नहीं
13.	Arm's licence/ शस्त्र लाइसेंस	13	Yes/ हाँ	No/ नहीं
14.	Central Government Health Scheme/Ex-servicemen Contributory Health Scheme card/ केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना/ पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	Yes/ हाँ	No/ नहीं
15.	Photo identity card issued by the Government/Public Sector Undertaking/ सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड	15	Yes/ हाँ	No/ नहीं
16.	Electricity bill (Not more than 3 months old)/ बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	16	No/ नहीं	Yes/ हाँ
17.	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)/ लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	17	No/ नहीं	Yes/ हाँ
18.	Water bill (Not more than 3 months old)/ पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	18	No/ नहीं	Yes/ हाँ
19.	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)/ उपभोक्ता गैस कार्ड/ बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	19	No/ नहीं	Yes/ हाँ
20.	Bank account statement (Not more than 3 months old)/ बैंक खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	20	No/ नहीं	Yes/ हाँ
21.	Credit card statement (Not more than 3 months old)/ क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	21	No/ नहीं	Yes/ हाँ
22.	Depository account statement (Not more than 3 months old)/ डिपॉजिटरी खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	22	No/ नहीं	Yes/ हाँ
23.	Property registration document/ संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	No/ नहीं	Yes/ हाँ
24.	Allotment letter of accommodation from Government/ सरकारी आवास आबंटन पत्र	24	No/ नहीं	Yes/ हाँ
25.	Passport of spouse bearing name of the person/ पति-पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	No/ नहीं	Yes/ हाँ
26.	Property tax payment receipt (Not more than one year old)/ संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो)	26	No/ नहीं	Yes/ हाँ

Please initial below/ कृपया नीचे आदृशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

B/ ख.	For Association of persons (Trusts)/ व्यक्तियों के संघ के लिए (न्यास)			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner/ न्यास विलेख की प्रति या धर्मार्थ आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	27	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
C/ ग.	For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person)/ व्यक्तियों के संघ (न्यास के अलावा) या व्यक्तियों की निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति)			
	Copy of agreement or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner or Registrar of cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person./ करार की प्रति या धर्मार्थ आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग से जारी किसी अन्य दस्तावेज की प्रति जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता साबित होता हो.	28	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ

- (2) In case of a transaction in the name of a minor, any of the abovementioned documents as proof of identity and address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian./ (2) अवयस्क के नाम में लेनदेन के मामले में ऐसे अवयस्क के माता-पिता/अभिभावक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेजों में कोई एक अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जायेगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा.
- (3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required./ (3) एचयूएफ के मामले में एचयूएफ के कर्ता के नाम में कोई भी दस्तावेज आवश्यक है.
- (4) In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 18 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 16./ (4) यदि लेनदेन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम में किया गया है तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्र.सं. 18 में वर्णित की जानी चाहिए और लेनदेन की कुल राशि क्र.सं. 16 में भरी जानी है.

In case the estimated total income in Column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application./ यदि कॉलम 22बी में अनुमानित कुल आय कर के लिए न देय अधिकतम राशि से अधिक है तो व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 21 को भरना चाहिए और आवेदन प्रस्तुत करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Staff number/ स्टाफ संख्या

Step 1/ कदम 1

1. Existing customer/ मौजूदा ग्राहक
 Yes/ हाँ No/ नहीं
2. SCC/HRC/ एससीसी/एचआरसी
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Step 2/ कदम 2

1. Screening checks/ स्क्रीन जांच
 Yes/ हाँ No/ नहीं
2. POA/ पीओए
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Step 3/ कदम 3

1. PI and PA Exception/ पीआई और पीए अपवाद
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Is this a new customer applying for a Credit Card only?/

क्या यह नया ग्राहक है जो केवल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Face to Face/ आमने-सामने

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Channel Type/ चैनल का प्रकार _____

Does the country/Jurisdiction of Tax Residency appear inconsistent with the Customers residential address(es), correspondence address(es) and nationality/Citizenship or TIN provided?/ क्या कर वाले देश/अधिकारक्षेत्र में दिया गया निवास ग्राहक का आवासीय पता, पत्रव्यवहार का पता और राष्ट्रीयता/नागरिकता या टिन से असंगत लगता है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Has the Customer's Identity been verified in line with the required standards?/ क्या अपेक्षित मानकों के अनुरूप ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया गया है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the customer able to provide required ID? / या ग्राहक अपेक्षित आईडी प्रदान कर पाया है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Specify category of special circumstances/ विशिष्ट परिस्थितियों की विशेष श्रेणी _____

Is a CDD Risk Acceptance request required to be submitted to Business and FCC/ क्या व्यवसाय और एफसीसी को सीडीडी जोखिम स्वीकृति अनुरोध भेजने की जरूरत है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Was the CDD Risk Acceptance request approved by Business Risk/FCC?/ क्या व्यवसाय जोखिम/एफसीसी द्वारा सीडीडी जोखिम स्वीकृति अनुरोध अनुमोदित किया गया था?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm that the residential address history for the last three years is recorded?/ पुष्टि करें कि गत तीन वर्षों का आवासीय पता का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Why is the Customer applying for an account in a country/territory which is not their country of residence?/ ग्राहक ऐसे देश/क्षेत्र में खाते के लिए क्यों आवेदन कर रहा है जो उसके आवास का देश नहीं है _____

Confirm the customer's occupation as a student and end course date has been validated/ छात्र के रूप में ग्राहक के पेशे की पुष्टि करें और पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख की पुष्टि की गई है

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Select a currency to apply to all intended transactions/ सभी अभीष्ट लेनदेनों पर लागू मुद्रा का चयन करें: _____

Does the customer have, or is asking for, a safe Custody product?/ क्या ग्राहक के पास सुरक्षित अभिरक्षा योजना उपलब्ध है या उसकी मांग कर रहा है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

On average how much funds does the customer intend to retain in their account over the _____ next 12 months (TRB)?/ अगले 12 महीनों में ग्राहक औसतन कितनी निधियां (टीआरबी) अपने खाते में रखने का इरादा रखता है? This is not a Customer facing question but is required to identify if the Customer is an HNWI./ यह प्रश्न ग्राहक के लिए नहीं है लेकिन यह जानने की जरूरत है कि क्या ग्राहक एचएनडब्ल्यूआई है?

Will the Customer be Top Tier (to identify HNWI)?/ क्या ग्राहक शीर्ष टियर में होगा (एचएनडब्ल्यूआई की पहचान करें)?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Is a manual EDD trigger required for the customer?/ क्या ग्राहक के लिए मैनुअल ईडीडी ट्रिगर की जरूरत है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

What are the categories of Products the customer is opening?/ ग्राहक से योजनाओं की कौनसी श्रेणी के अवसर है?

 ATM or Debit/ एटीएम या डेबिट कार्ड Card Credit Cards/ कार्ड क्रेडिट कार्ड्स Current A/c/ चालू खाता Savings A/c/ बचत खाता Fixed Term Loan-Unsecured/ नियत अवधि वाले ऋण - अप्रतिभूत Instant Access Savings A/c/ तत्काल अभिगम बचत खाता Secured Fixed Term Loans/ प्रतिभूत नियत अवधि वाले ऋण Secured Revolving Line Of Credit/ प्रतिभूति आवर्ती ऋण व्यवस्था Term Deposits/ मीयादी जमा राशियां Unsecured Revolving Line Of Credit/ अप्रतिभूत आवर्ती ऋण व्यवस्था

Has the source of cash deposit been validated?/ क्या नकदी जमा के स्रोत की पुष्टि कर ली गई है?

 Yes/ हाँ No/ नहींUpload documentary evidence/ दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm the purpose of opening the account(s) is consistent with the expected account activity and the Customer's profile, including their Source of Funds and Source of Wealth (where applicable)?/ पुष्टि करें कि खाता खोलने का उद्देश्य खाते में प्रत्याशित गतिविधि और ग्राहक रूपरेखा के अनुरूप है जिसमें उनकी निधियों का स्रोत और धनसंपदा का स्रोत (जहां लागू हो) शामिल हो?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the customer likely to engage in funds transfers to/ या ग्राहक द्वारा निधि अंतरण उच्च जोखिम या संवेदनशील प्रतिबंधित देशों को/से करने की संभावना है?

 Yes/ हाँ No/ नहीं

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

What level of influence does the Connected Party have over the account?/ संबंधित पक्षकार का खाते पर किस स्तर का प्रभाव है? _____

Rationale for connection/ संबंध का तर्काधार _____

Is the connected party's customer record in the same system as the main party's?/ क्या संबद्ध पक्षकार के ग्राहक का रिकॉर्ड मुख्य पक्षकार के रूप में उसी सिस्टम में उपलब्ध है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm that the identity of the connected party (full name, residential address) has been verified/ पुष्टि करें कि संबद्ध पक्षकार की पहचान (पूरा नाम, आवासीय पता) की पुष्टि कर ली गई है. Yes/ हाँ No/ नहीं

Is there a reasonable connection between the connected party and the customer?/ संबद्ध पक्षकार और ग्राहक के बीच कोई उचित संबंध है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the connected party a Politically Exposed Person (PEP)?/ क्या संबद्ध पक्षकार का राजनैतिक संबंध (पीईपी) है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Was Connected Party's Identity verified through the use of Electronic or Documentary sources?/ क्या संबद्ध पक्षकार की पहचान की पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक उपयोग या दस्तावेजी स्रोत के जरिये की गई थी? Yes/ हाँ No/ नहीं

Were any exceptions (to global CDD policy) noted during the Connect Party verification process?/ संबद्ध पक्षकार की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोई अपवाद (वैश्विक सीडीडी नीति के मामले में) था? Yes/ हाँ No/ नहीं

Provide the rationale for the upwards revision of the risk rating and any other relevant information that you wish to note in relation to the Customer that may affect their application?/ जोखिम रेटिंग में आरोही संशोधन और अन्य प्रासंगिक जानकारी का तर्काधार प्रदान करें जो आप ग्राहक के बारे में नोट करना चाहते हैं जो उसके आवेदन को प्रभावित कर सकता है? _____

KYC completed and Account record checked by/ केवाईसी पूरा किया और खाते के रिकॉर्ड की जांच द्वारा की गई: (To be completed by the account opening staff)/ (खाता खोलने वाले स्टाफ के द्वारा पूरा किया जाये)

Is IWP issued for the Customer/ क्या ग्राहक का आईडब्ल्यूपी जारी किया गया है Yes/ हाँ No/ नहीं

New account number(only in case of IWP)/ नया खाता संख्या (केवल आईडब्ल्यूपी मामले में)

Staff Name/ स्टाफ का नाम _____

Staff ID/ स्टाफ आईडी Staff Designation/ स्टाफ का पदनाम _____

Staff Signature/ स्टाफ के हस्ताक्षर _____

Date of submission of all documents/ सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख _____

Name of HSBC Relationship Manager/ एचएसबीसी संपर्क प्रबंधक का नाम _____ Please mark as NA in case of HSBC Savings/Current account/ एचएसबीसी बचत/चालू खाते के मामले में लागू नहीं लिखें

HSBC Secondary Relationship Manager Code/ एचएसबीसी के दूसरे संपर्क प्रबंधक का कोड _____ Please mark as NA in case of HSBC Savings/Current account/ एचएसबीसी बचत/चालू खाते के मामले में लागू नहीं लिखें

AAA aligned to customer profile/ एए को ग्राहक रूपरेखा से जोड़ा गया Yes/ हाँ No/ नहीं

KYC completed and account opening authorised by/ केवाईसी पूरा किया और खाता खोलने को द्वारा अधिकृत किया गया (शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख का ब्योरा) (Branch Manager/Regional Head details)/ (शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख का ब्योरा)

I have verified the name of the customer on AOF with the KYC documents provided and confirm that it meets the standards of CDD. I also hereby confirm that customer's photo on PI and PA (if photo ID) matches with the photo on AOF/ मैंने एओएफ पर ग्राहक के नाम का प्रदत्त केवाईसी दस्तावेजों से सत्यापन किया है और पुष्टि करता हूँ कि यह सीडीडी मानकों को पूरा करता है. मैं एतद् द्वारा यह भी पुष्टि करता हूँ कि पीआई और पीए पर ग्राहक की फोटो एओएफ पर फोटो से मिलती है. Yes/ हाँ No/ नहीं

Branch Manager/Regional Head Name/ शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख का नाम _____

Branch Manager/Regional Head Staff Number/ शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख स्टाफ संख्या

Branch Manager's/Regional Head's signature _____

शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख के हस्ताक्षर

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

	Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारक	Remarks/ टिप्पणी
• PAN copy/ Form 60/ पैन की प्रति/फॉर्म 60	<input type="checkbox"/>	_____
• PAN website validation/ पैन वेबसाइट से पुष्टि	<input type="checkbox"/>	_____
• Passport/Driving license copy/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Aadhar card copy/ आधार कार्ड की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• AOC copy/ एओसी की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Mortgage LTS screenshot/ बंधक एलटीएस का स्क्रीनशॉट	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Global Premier/ वैश्विक प्रिमियर का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Nomination form/ नामांकन फॉर्म	<input type="checkbox"/>	_____
• Passport size photo for each account holder signed on the front/ प्रत्येक खाताधारक की पासपोर्ट आकार की फोटो और उस पर हस्ताक्षर	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Identity/ पहचान का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Address/ पते का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Additional KYC documents (Subject to verifications and senior executive approvals)/ केवाईसी के अतिरिक्त दस्तावेज (सत्यापन और वरिष्ठ कार्यपालक के अनुमोदन के अधीन)	<input type="checkbox"/>	_____
• RVTV & Senior Executive Approval/ आरवीटीपी और वरिष्ठ कार्यपालक का अनुमोदन	<input type="checkbox"/>	_____
• SCC KYC profile/ एससीसी केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• FCCRM KYC profile/ एफसीसीआरएम केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• ECC/MRC KYC profile/ ईसीसी/एमआरसी केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• Blacklisting Check/ PEP check/ World check/ Sanctions check कालीसूची की जांच/पीईपी जांच/वैश्विक जांच/प्रतिबंध की जांच	<input type="checkbox"/>	_____
• POA/ पीओए	<input type="checkbox"/>	_____
• SPL INST/ विशेष संस्था	<input type="checkbox"/>	_____
• IWP acknowledgement copy/ आईडब्ल्यूपी पावती की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Signature of account opening bank staff/ खाता खोलने वाले बैंक स्टाफ के हस्ताक्षर	<input type="checkbox"/>	_____
• Bank seal and OSV/ बैंक की मुहर और ओएसवी	<input type="checkbox"/>	_____
• PI and PA variation/ पीआई और पीए विचरण	<input type="checkbox"/>	_____
• INM approval/ आईएनएम अनुमोदन	<input type="checkbox"/>	_____
• C31 provided/ सी31 प्रदत्त	<input type="checkbox"/>	_____

BM Name/ बीएम का नाम _____

BM Employee number/ बीएम कर्मचारी का नाम _____

_____ BM Signature/ बीएम के हस्ताक्षर

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

_____ (NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India

हांगकांग एंड संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लि., भारत

Wealth Management Relationship Form

धनसंपदा प्रबंध संबंध फॉर्म

Name of the customer/ ग्राहक का नाम:

Branch Name/ शाखा का नाम: _____

PAN of customer/ ग्राहक का पैन:

Date of birth/ जन्म तारीख: Customer is minor/ ग्राहक अवयस्क है: Yes/ हाँ No/ नहीं

CKYC No/ सीकेवाईसी सं.: _____

Name of the guardian/ अभिभावक का नाम:

Relationship of guardian with minor/ अवयस्क का अभिभावक के साथ संबंध: _____

Country of birth/ जन्म वाला देश: _____ Nationality/ राष्ट्रियता: _____

Contact details and Address/ संपर्क का विवरण और पता

Address Type/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय और कारोबार

Resident Individual/ निवासी व्यक्ति Non-Resident Individual/ अनिवासी व्यक्ति

City/ शहर: _____ State/ राज्य: _____ Pin code/ पिन कोड

Telephone/ टेली. (Res./ (आ.) (ISD code) (STD code)

Mobile/ मोबाइल + (ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

*E-mail ID/*ईमेल: _____

Overseas address/ विदेश का पता: (for NRE/NRO accounts/ (एनआरई/एनआरओ खाते) _____

City/ शहर: _____ State/ राज्य: _____ Pin code/ पिन कोड

Occupation/ पेशा: _____

Name of the organisation/ संगठन का नाम: _____

Designation/ पदनाम: _____

Income range per annum/ आय श्रृंखला वार्षिक: _____

Source of Wealth/ धनसंपदा का स्रोत: Salary/ वेतन Business/ कारोबार Income/ आय

Gift/ उपहार Ancestral Property/ पैतृक संपत्ति

Rental Income/ किराये से आय Prize Money/ पुरस्कार राशि

Royalty/ रॉयल्टी Others/ अन्य

Politically Exposed Person (PEP) Status**/ राजनैतिक संबंध (पीईपी) की स्थिति** I am PEP/ मैं राजनीति से जुड़ा हूँ

I am related to PEP/ मेरा राजनीति से संबंध है Not Applicable/ लागू नहीं

**PEP are defined as individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country. e.g., Heads of States or of Governments, senior politicians, senior Government/Judicial/military officers, senior executives of state owned corporations, important political party officials, etc., or senior political figures and their immediate family members and close associates./ **ऐसे व्यक्तियों को पीईपी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनको विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गये हैं जैसे राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/मिलिटरी अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि या वरिष्ठ राजनैतिक व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य और नजदीकी रिश्तेदार.

Power of Attorney (POA) to be appointed/ नियुक्त किया जाने वाला मुख्तारनामा (पीओए) Yes/ हाँ No/ नहीं

if yes, relevant third party power of attorney form along with other documents as required by the Bank to be provided. Please contact your Bank Relationship Manager or any of the Bank's branches for assistance./ यदि हाँ तो बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ संबद्ध अन्य पक्षकार का मुख्तारनामा फॉर्म प्रदान किया जाये. कृपया सहायता के लिए अपने बैंक संपर्क प्रबंधक या बैंक की किसी शाखा से संपर्क करें.

*The e-mail ID mentioned above will be shared with the Asset Management Companies (AMC) which may be used by them to correspond with you regarding your investments. The AMCs may communicate to you at your mailing address as per the records of CDSL

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Ventures Limited (CVL)/KYC Registration Agency(s) as notified by regulator and we will communicate at the contact details mentioned hereinabove. In case there are any changes in the contact details as provided above, please contact your Bank Relationship Manager or your branch to update your records in this regard.// * उपर्युक्त वर्णित ई-मेल आईडी आस्ति प्रबंध कंपनी (एमसी) को भेजी जायेगी जिसे वे आपके निवेशों के बारे में आपसे पत्रव्यवहार करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं. विनियामक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एमसी सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल)/केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार आपके डाक के पते पर आपको संप्रेषण भेज सकते हैं और हम इसमें ऊपर वर्णित संपर्क के ब्योरे पर संप्रेषण करेंगे. ऊपर दिये गये संपर्क के ब्योरे में परिवर्तन होने पर इस संबंध में आपके रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए अपने बैंक संपर्क प्रबंधक या अपनी शाखा से संपर्क करें.

Note: The Wealth Management relationship shall commence only subsequent to the activation of your savings bank account. /

टिप्पणी: धनसंपदा प्रबंधन का संबंध आपके बचत बैंक खाते के सक्रिय होने के बाद ही आरंभ किया जायेगा.

Customer Declaration/ ग्राहक द्वारा घोषणा

I confirm that I have read and understood and agree to the terms and conditions applicable to Tariff Plan made available by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (hereinafter referred to as 'the Bank') on its website, www.hsbc.co.in (Website) and agree to the same. I understand that the Tariff Plans are subject to change at the discretion of the Bank and agree to pay the charges as applicable from time to time. I understand that when the fee/tariff is revised upwards, a clear 30 days notice will be provided to me by the Bank, to give me the opportunity to make an informed decision to continue/discontinue the Wealth Management Services. I understand that the Bank reserves the right to first recover any previous outstanding charges prior to executing my investment transaction by debiting my bank account with the Bank./ मैं पुष्टि करता हूँ कि हांगकांग और संचाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (इसमें इसके बाद इसे 'बैंक' कहा गया है) की वेबसाइट, हीलल.ले.व्.प (वेबसाइट) पर उपलब्ध कराई गई लागू प्रशुल्क योजना की शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं और उनसे सहमत हूँ. मैं मानता हूँ कि प्रशुल्क योजनाएं बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तित की जा सकती हैं और समय समय पर लागू प्रभार अदा करने के लिए सहमत हूँ मैं जानता हूँ कि फीस/प्रशुल्क में जब बढ़ोतरी की जाती है तो धनसंपदा प्रबंध सेवाओं को जारी रखने/बंद करने के लिए सूचित निर्णय लेने का अवसर प्रदान करने के लिए बैंक मुझे 30 दिन का स्पष्ट नोटिस देगा. मैं जानता हूँ कि बैंक को मेरे निवेश लेनदेन करने से पहले किसी पूर्व बकाया प्रभार को बैंक के पास मेरे बैंक खाते को नामे कर वसूल करने का अधिकार है.

I am aware that the detailed terms and conditions for Wealth Management Services of the Bank are available on its Website. I confirm that I have read and understood and hereby agree to abide by the terms and conditions pertaining to Wealth Management Services and Mutual Fund Key Features Document. I confirm that the information provided by me is true, correct and complete./ मैं जानता हूँ कि बैंक की धनसंपदा प्रबंधन सेवाओं की विस्तृत शर्तें इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने धनसंपदा प्रबंधन सेवाओं और म्यूच्युअल फंड की प्रमुख विशेषताओं वाले दस्तावेज की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद द्वारा उनका पालन करने के सहमत हूँ. मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है.

I agree to inform the Bank of any modification to this information promptly. I authorize the Bank to share the information provided with AMCs, their Registrars and Transfer Agents or other SEBI Registered Intermediaries. I further acknowledge the right of the Bank to provide details of my account and sharing or transfer of information, which will be on a confidential basis, to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by the Bank and also may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me. I understand that the details provided by me will be reconciled with existing records of the Bank and any discrepancy will be duly highlighted to me for rectification/updating of records. I agree that the Bank shall have the right to modify the rules, terms and conditions for Wealth Management Services at its sole discretion, which shall be put up on the Website from time to time. I undertake to check the Bank's Website for any modifications thereto from time to time. I am aware that any change to the terms and conditions will be made with prospective effect and would be updated on the Website./ मैं इस सूचना में किसी बदलाव के बारे में बैंक को तत्काल सूचित करने के लिए सहमत हूँ. मैं बैंक को यह जानकारी एमसी, उनके रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट या सेबी के पास पंजीकृत अन्य मध्यवर्तियों को प्रदान करने के लिए अधिकृत करता हूँ. मैं बैंक द्वारा मेरे खाते की जानकारी देने और बांटने या जानकारी का अंतरण करने के बैंक के अधिकार को मानता हूँ जो गोपनीय आधार पर एचएसबीसी के समूह कार्यालयों या अन्य पक्ष वाली एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं को प्रदान करेगा जो भारत में स्थित हों या विदेश में, जिसमें बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता सेवाएं प्राप्त करने का उद्देश्य, लेकिन उस तक ही सीमित नहीं, शामिल है और किसीकानून, नियम या विनियमन में अपेक्षित या अनुमत होने पर जानकारी का प्रकटन या किसी लोक या विनियामक प्राधिकारी द्वारा मांगने या ऐसा प्रकटन किसी धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, जो मेरे से विशिष्ट सहमति या प्राधिकारण के बिना कर सकेगा. मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किया गया विवरण बैंक के पास मौजूद रिकॉर्ड से मिलाया जायेगा और कोई विसंगत रिकॉर्ड को सुधारने/अद्यतन करने के लिए मुझे बताई जायेगी. मैं सहमत हूँ कि बैंक को धनसंपदा प्रबंध सेवाओं के नियमों एवं शर्तों को अपने विवेकाधीन पर संशोधन करने का अधिकार होगा जिन्हें समय समय पर वेबसाइट पर रखा जायेगा. मैं समय समय पर उनमें किसी संशोधन के लिए बैंक की वेबसाइट को देखने का वचन देता हूँ. मैं जानता हूँ कि शर्तों में कोई भी परिवर्तन भविष्य प्रभावी होगा और वेबसाइट पर अद्यतन किया जायेगा.

I confirm that the information provided by me is true, correct and complete. I agree to inform the Bank of any modification to this information promptly. I authorize the Bank to share the information provided with AMCs, their Registrars and Transfer Agents or other SEBI Registered Intermediaries. I further acknowledge the right of the Bank to provide details of my account and sharing or transfer of information, which will be on a confidential basis, to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by the Bank and also may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me. I understand that the details provided by me will be reconciled with existing records of the Bank and any discrepancy will be duly highlighted to me for rectification/updating of records./ मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है. इस जानकारी में किसी परिवर्तन को तत्काल बैंक को सूचित करने के लिए सहमत हूँ. मैं प्रदत्त जानकारी को एमसी, उनके रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट या सेबी के पास पंजीकृत अन्य मध्यवर्तियों को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. मैं बैंक द्वारा मेरे खाते की जानकारी देने और बांटने या जानकारी का अंतरण करने के बैंक के अधिकार को मानता हूँ जो गोपनीय आधार पर एचएसबीसी के समूह कार्यालयों या अन्य पक्ष वाली एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं को प्रदान करेगा जो भारत में स्थित हों या विदेश में, जिसमें बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता सेवाएं प्राप्त करने का उद्देश्य, लेकिन उस तक ही सीमित नहीं, शामिल है और किसी कानून, नियम या विनियमन में अपेक्षित या अनुमत होने पर जानकारी का प्रकटन या किसी लोक या विनियामक प्राधिकारी द्वारा मांगने या ऐसा प्रकटन किसी धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, जो मेरे से विशिष्ट सहमति या प्राधिकारण के बिना कर सकेगा. मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किया गया विवरण बैंक के पास मौजूद रिकॉर्ड से मिलाया जायेगा और कोई विसंगत रिकॉर्ड को सुधारने/अद्यतन करने के लिए मुझे बताई जायेगी.

Customer name/ ग्राहक का नाम: _____

Customer signature:/ ग्राहक के हस्ताक्षर: _____

Date/ तारीख:

Place/ स्थान: _____

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

For office use section:/ कार्यालय उपयोग के लिए:

CVL KYC completed/ सीवीएल केवाईसी पूरा किया गया हाँ नहीं

I have verified the name and signature of the customer on wealth management account opening form with the KYC documents provided./ मैंने धनसंपदा प्रबंध खाता खोलने के फॉर्म पर ग्राहक का नाम और हस्ताक्षर दिये गये केवाईसी दस्तावेजों से सत्यापन किया है।

Staff name/स्टाफ का नाम (non-sales staff/ (गैर-बिक्री स्टाफ): : _____

Designation/ पदनाम (non-sales staff/ (गैर-बिक्री स्टाफ): : _____

Employee ID/ कर्मचारी आईडी (non-sales staff/ (गैर-बिक्री स्टाफ): : _____

Staff signature स्टाफ के हस्ताक्षर:

I/We confirm that the above due diligence has been conducted by me/us for the customer and the customer is recommended for wealth management account opening./ मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि ग्राहक के बारे में उपर्युक्त सम्यक तत्परता मेरे/हमारे द्वारा की गई है और ग्राहक के लिए धनसंपदा प्रबंधन खाता खोलने की अनुशंसा की जाती है।

Planner name:/ योजनाकार का नाम: _____

Employee ID of planner/ योजनाकार की कर्मचारी आईडी: _____

Planner signature/ योजनाकार के हस्ताक्षर:

Sales process completed and all necessary documents obtained. Recommended for WMS account opening./ बिक्री प्रक्रिया पूरी की गई और सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये हैं। धनसंपदा प्रबंध सेवा के लिए खाता खोलने की अनुशंसा की जाती है।

BM name/ बीएम का नाम: _____

BM employee ID/ बीएम की कर्मचारी आईडी: _____

BM signature/ बीएम के हस्ताक्षर:

Bank stamp/ बैंक की मुहर:

Please initial below/ कृपया नीचे आदक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Conversion of Non-Resident account to Resident Account
अनिवासी खाते को निवासी खाते में बदलना

Date/ तारीख: _____

To/ प्रति

The Branch Manager/ शाखा प्रबंधक

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India/ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत

Sub/ विषय: Conversion of Non-Resident account to Resident Account held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India ('Bank') Owing to the change of my current residential status I would like to re-designate the following Non-Resident account(s) to Resident account with immediate effect./ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (बैंक) के पास रखे गये अनिवासी खाते को निवासी खाते में बदलना. मेरी मौजूदा आवासीय स्थिति में परिवर्तन के कारण मैं निम्नलिखित अनिवासी खाते को तत्काल प्रभाव से निवासी खाते में पुनर्निर्धारण करवाना चाहूंगा:

Account No/ खाता संख्या. _____

I enclose the documents as under/ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ – (in addition to the request form)/ (अनुरोध फॉर्म के अलावा)

- Completed Resident Account Opening form/ पूर्ण निवासी खाता खोलने का फॉर्म
- Passport size photograph/ पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- Any one document to evidence Proof of Identity (List A) and Proof of Address (List – B) from sole and all joint accountholders/ एकल और संयुक्त खाताधारकों की पहचान के प्रमाण (सूची ए) और पते के प्रमाण (सूची बी) के लिए कोई एक दस्तावेज
- PAN/ पैन/ Form -60/ फॉर्म -60

List A/ सूची ए	List B/ सूची बी
Passport/ पासपोर्ट	Passport/ पासपोर्ट
Election/Voter's id/ मतदान/मतदाता पहचान पत्र	Election/Voter's id/ मतदान/मतदाता पहचान पत्र
Permanent driving license/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस	Permanent driving license/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
Government employee ID Card/ सरकारी कर्मचारी का आईडी	Ration Card/ राशन कार्ड
Defence ID Card/ रक्षा आईडी कार्ड	Society Outgoing bill (Only from registered societies)/ सोसायटी खर्च का बिल (केवल पंजीकृत सोसायटी से)
	Electricity/water/telephone bill/ बिजली/पानी/टेलीफोन बिल
	Property tax bill/ संपत्ति कर बिल
	Domicile certificate with address issued by Municipal Corporation/ नगरपालिका निगम द्वारा जारी पते के साथ निवासी प्रमाणपत्र

Ration Card is not accepted as a proof of residential/ permanent address in the state of Gujarat and Maharashtra or in those states where the ration card/ गुजरात और महाराष्ट्र तथा अन्य ऐसे राज्यों में राशन कार्ड को आवासीय/स्थायी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है

specifically states that it has been issued only for 'ration purposes'./ जहां पर राशन कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो कि यह केवल राशन के उद्देश्य के लिए जारी किया गया है.

I also have read and understood the conditions mentioned overleaf./ मैंने इसके पीछे लिखी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है.

Thanking you./ धन्यवाद

(Signature of all accountholders required/ (सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं)

Conditions/ शर्तें :-

- Please note that your account number will not change with the re-designation of your existing savings account/ कृपया नोट करें कि आपके मौजूदा बचत खाते के पुनर्निर्धारण पर आपका खाता संख्या नहीं बदलेगा.
- Post re-designation the existing standing instructions/ECS/auto debit instruction given on the account will continue to be honored./ पुनर्निर्धारण के बाद खाते में दिये गये मौजूदा स्थायी अनुदेश/ईसीएस/स्वतः नामे अनुदेशों का पालन होता रहेगा.
- A separate instructions for change in residency status for demat/loan/wealth management accounts (IF ANY) to be provided to HSBC India. Power of Attorney (if any) existing on the Non-Resident External (NRE) account will be discontinued./ डिमैट/ऋण/धनसंपदा प्रबंध खाते (यदि कोई हो) के लिए निवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए एचएसबीसी भारत को अलग से अनुदेश दिये जायें. मौजूदा अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाते में मुख्तारनामा (यदि कोई हो) को बंद कर दिया जायेगा.
- The existing cheque series and debit card on the Non-resident account will not be operational and a welcome pack consisting of the debit card cheque book will be sent to your correspondence address as mentioned on the account opening form./ अनिवासी खाते में मौजूदा चेक श्रृंखला और डेबिट कार्ड का परिचालन नहीं होगा और खाता खोलने के फॉर्म में वर्णित आपके पत्रव्यवहार के नते पर डेबिट कार्ड, चेक बुक सहित स्वागत पैक भेजा जायेगा.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Following are the Deliverables/ निम्नलिखित चीजों की सुपुर्दगी की जाती है :-

- Personalized Cheque book/ वैयक्तिक चेक बुक
- Debit Card/ डेबिट कार्ड
- The Banking Codes and Standards Board of India Brochure./ भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का ब्रोशर.
- Cheques issued prior to redesignation of the account but presented to HSBC India post conversion shall not honored. You are requested to make alternate arrangement on the same prior to submitting the request for re-designation of account. The accountholder(s) indemnifies HSBC India against any actions proceedings, claims and/or demands that may arise due to such dishonor./ खाते के पुनर्निर्धारण से पहले जारी लेकिन परिवर्तन के बाद एचएसबीसी भारत में प्रस्तुत चेकों का भुगतान नहीं किया जायेगा. अतः खाते के पुनर्निर्धारण का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले आप द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध है. ऐसे अनादरण के कारण की जाने वाली किसी कार्यवाही, दावे और/या मांग के लिए खाताधारक (कों) को एचएसबीसी भारत को क्षतिपूर्ति करनी होगी

Please initial below/ कृपया नीचे आदृशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Conversion of Resident account to Non-Resident
निवासी खाते का अनिवासी खाते में परिवर्तन

Date/ तारीख: _____

To/ प्रति

The Branch Manager/ शाखा प्रबंधक

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India/ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत

Sub/ विषय: Conversion of Resident Account to Non-Resident/ Conversion of Resident Account to Non-Resident Owing to the change of my current residential status I would like to re-designate the following Resident Account(s) held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India ("Bank")/ निवासी खाते का अनिवासी खाते में परिवर्तन, मेरी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के कारण मैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (बैंक) के पास रखे गये निम्नलिखित निवासी खाते का पुनर्निर्धारण करवाना चाहूंगा:

Account Nos/ खाता संख्या. _____

I enclose the documents as under/ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ – (in addition to the request form)/ (अनुरोध फॉर्म के अलावा)

- ✓ Completed Account Opening Form/ पूर्ण निवासी खाता खोलने का फॉर्म
- ✓ Fresh KYC documents for Non – Resident conversion as per the NRI Account Opening form/ निवासी भारतीय खाता खोलने के फॉर्म के अनुसार अनिवासी परिवर्तन के लिए नये केवाईसी दस्तावेज –
 - Passport size photograph for each applicant signed by the applicant on the front/ प्रत्येक आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, आवेदक द्वारा उस पर हस्ताक्षर
 - Attested photocopies of the passport of each applicant of pages showing passport details, work permit/visa details as well as the page indicating the last date of arrival in India/ प्रत्येक आवेदक के पासपोर्ट के उन पृष्ठों की सत्यापित फोटोकॉपी, जिनमें पासपोर्ट का ब्योरा, कार्य अनुमति वीजा का ब्योरा और भारत में आगमन की अंतिम तारीख का वर्णन हो.
 - Separate proof of Non-Resident status if overseas Residence Visa/Permit or Work Permit is not included in the passport./ यदि पासपोर्ट में विदेशी आवास बीजा/अनुमति या कार्य अनुमति शामिल न हो तो अनिवासी स्थिति का अलग प्रमाण
 - Proof of Indian Origin, if any, (e.g. PIO Card) in case of foreign passport holders./ विदेशी पासपोर्ट धारकों के मामले में भारतीय मूल का प्रमाण, यदि कोई हो (जैसे पीआईओ कार्ड)
 - In case of minors, please attach a photocopy of guardian's passport and guardian's photograph signed on the front/ अयस्ककों के मामले में कृपया अभिभावक के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और हस्ताक्षर के साथ अभिभावक की फोटो
 - Proof of address for each applicant/ प्रत्येक आवेदक के पते का प्रमाण
 - For employees of foreign shipping company/merchant navy, the following documents are required in addition to proof of residential address/ विदेशी जहाज कंपनी/मर्चेंट नौकी के कर्मचारियों के लिए आवासीय पते के प्रमाण के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
 - For permanent employees/ स्थायी कर्मचारियों के लिए – initial work contract and last wage slip/ प्रारंभिक कार्य संधि और अंतिम वेतन पर्ची
 - For contract employees/ संधि कर्मचारियों के लिए – current work contract with a letter from local agent confirming next date of joining vessel// वर्तमान कार्य संधि और वेसल में कार्यग्रहण की आगामी तारीख की पुष्टि करते हुए स्थानीय एजेंट से एक पत्र

I also have read and understood the conditions mentioned overleaf./ मैंने इसके पीछे लिखी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है.

Thanking you,/ धन्यवाद

(Signature of all accountholders required/ (सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं)

Conditions/ शर्तें :-

- Please note that your account number will not change with the re-designation of your existing savings account/ कृपया नोट करें कि आपके मौजूदा बचत खाते के पुनर्निर्धारण पर आपका खाता संख्या नहीं बदलेगा.
- Post re-designation the existing standing instructions/ECS/auto debit instruction given on the account will continue to be honored./ पुनर्निर्धारण के बाद खाते में दिये गये मौजूदा स्थायी अनुदेश/ईसीएस/स्वतः नामे अनुदेशों का पालन होता रहेगा.
- A separate instructions for change in residency status for demat/loan/wealth management accounts (IF ANY) to be provided to HSBC India./ डिमैट/ऋण/धनसंपदा प्रबंध खाते (यदि कोई हो) के लिए निवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए एचएसबीसी भारत को अलग से अनुदेश दिये जायें.
- The existing cheque series and debit card on the Resident account will not be operational and a welcome pack consisting of the debit card cheque book will be sent to your correspondence address as mentioned on the account opening form./ निवासी खाते में मौजूदा चेक श्रृंखला और डेबिट कार्ड का परिचालन नहीं होगा और खाता खोलने के फॉर्म में वर्णित आपके पत्रव्यवहार के नते पर डेबिट कार्ड, चेक बुक सहित स्वागत पैक भेजा जायेगा.

Following are the Deliverables/ निम्नलिखित चीजों की सुपूर्दगी की जाती है :-

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

- Personalized Cheque book/ वैयक्तिक चेक बुक
- Debit Card/ डेबिट कार्ड
- The Banking Codes and Standards Board of India Brochure./ भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का ब्रोशर.
- Cheques issued prior to re-designation of the account but presented to HSBC India post re-designation shall not get honored. You are requested to make alternate arrangement on the same prior to submitting the request for re-designation of account. The accountholder(s) indemnifies HSBC India against any actions proceedings, claims and/or demands that may arise due to such dishonor./ खाते के पुनर्निर्धारण से पूर्व जारी लेकिन पुनर्निर्धारण के बाद एचएसबीसी भारत के पास प्रस्तुत चेकों का भुगतान नहीं किया जायेगा. अतः खाते के पुनर्निर्धारण का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले आप द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध है. ऐसे अनादर के कारण की जाने वाली किसी कार्यवाही, दावे और/या मांग के लिए खाताधारक (कों) को एचएसबीसी भारत को क्षतिपूर्ति करनी होगी

Please initial below/ कृपया नीचे आदृशर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)